



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2012—जनवरी 4, 2013 (पौष 8, 1934)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2012—JANUARY 4, 2013 (PAUSA 8, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

(रक्षा विभाग)

सं. 551, दिनांक 5 दिसम्बर 2012—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और 19(1) के संदर्भ में और इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी पत्रों के अधिक्रमण में सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को एतद्वारा निम्नलिखित सूची के अनुसार संबंधित सैनिक स्कूल से जुड़े मामलों की बाबत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामोद्दिष्ट किया जाता है:—

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, अमरावतीनगर, टेली. 04252-256296

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, अम्बिकापुर, टेली. 07774-2329978

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, बालचड़ी, टेली. 02893-246226

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर, टेली. 0674-2581845

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, बीजापुर, टेली. 08352-270638

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़, टेली. 01472-248695

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, टेली. 05942-220051

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा, टेली. 03663-287076

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, गोपालगंज, टेली. 06150-231681

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, इम्फाल, टेली. 0385-2423434

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, कपूरथला, टेली. 01822-232532

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, कझाकूटम, टेली. 0471-2418247

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, कोडागू, टेली. 08276-278961

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा, टेली. 0891-246168

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, टेली. 0184-2385901

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, नगरोय, टेली. 0191-2673927

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, नालंदा, टेली. 06112-255449

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, पुंगलवा, टेली. 03839-262001

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, पुरुलिया, टेली. 03252-223999

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, रीवा, टेली. 07662-254803

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, रेवाड़ी, टेली. 01274-260850

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, सतारा, टेली. 02162-234483

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा, टेली. 01972-272024

प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, तिलैया, टेली. 06534-235048

रक्षा मंत्रालय में सैनिक स्कूल सोसाइटी का कार्य देखने वाले अवर सचिव को एतद्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबंधित मामलों के बारे में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नामोद्दिष्ट किया जाता है

अवैतनिक सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ-साथ सैनिक स्कूलों से संबंधित सभी मामलों की बाबत अपीलीय प्राधिकारी होंगे

प्रेम प्रकाश
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 552, दिनांक 5 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष (आईसी-31348) ले जनरल राजन बक्शी को 1 नवम्बर 2012 से 17 हार्स के कर्नल ऑफ दी रेजीमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, सहर्ष (आईसी-34396एफ) मेजर जनरल आर एन नायर एस एम को 1 नवम्बर 2012 से जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री रेजीमेन्ट के कर्नल ऑफ दी रेजीमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं

पी के पटनायक
निदेशक/एमएसएक्स

सेना शाखा

सं. 553, दिनांक 5 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित डब्ल्यूएसईएस(ओ) अधिकारियों को उनके 02 मार्च 2012 से डब्ल्यूएसईएस(ओ) कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैंक में 02 मार्च 2002 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

(आईसी-65644एन) (डब्ल्यूएस-00657एक्स) शीना गोयल, एईसी

(आईसी-65645डब्ल्यू) (डब्ल्यूएस-00660एक्स) राजबाला, एईसी

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 02 मार्च 2002

पदोन्नति के लिये तारीख - 02 सितम्बर 2002

उपरोक्त डब्ल्यूएसईएस(ओ) कमीशन अधिकारी तथा उनके परस्पर कमीशन प्राप्त अधिकारी जिन्हें समान तिथि समान वरिष्ठता के साथ स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो डब्ल्यूएसईएस(ओ)/एसएससीओ कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है। यदि उपरोक्त स्थाई कमीशन प्राप्त डब्ल्यूएसईएस (ओ) कमीशन अधिकारी तथा एमए से रेगुलर स्थाई कमीशन प्राप्त अधिकारी की वरिष्ठता की तिथि आई एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता में इन्हें आईएमए से रेगुलर स्थाई कमीशन प्राप्त अधिकारी के कनिष्क रखा जायेगा

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 23 मई 2012 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टि के रैंक में 23 मई 2012 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

(आईसी-66321एक्स) (एसएस-40895एम) नगरकर सुहेल कृष्णा, आर्टी

(आईसी-66322ए) (एसएस-40921एच) प्रदीप मिश्रा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66323एच) (एसएस-40944के) टॉम जाँव थेकेड़ात, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66324एल) (एसएस-40948ए) ए प्रकाश, आर्टी

(आईसी-66325एन) (एसएस-40951ए) अखिलेश कपूर, आर्टी

(आईसी-66327वाई) (एसएस-40961के) अवनीश सिंह राठौर, आर्टी

(आईसी-66328एफ) (एसएस-40962एम) पुष्पिन्दर सेनी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-66329एन) (एसएस-40968एन) भानू प्रताप सिंह रत्नावत, आर्टी

(आईसी-66330वाई) (एसएस-41023डब्ल्यू) अभिषेक शर्मा, एसएससी

(आईसी-66332के) (एसएस-41042एफ) आशीष राणा, एएडी

(आईसी-66333एम) (एसएस-41082एच) राकेश रंजन, इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की स्थाई कमीशन में निम्नलिखित तारीख होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 17 सितम्बर 2004

पदोन्नति के लिये तारीख - 17 अप्रैल 2006

(इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम करने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है

जितेन्द्र ओहरी
कर्नल
कर्नल सेना सचिव-7

सेना शाखा

सं. 554, दिनांक 6 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

यथा संशोधित अनुदेश 219/50 के तहत निम्नलिखित अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से कप्तान के रैंक में स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है और दिनांक 22 दिसम्बर 2011 से अल्प कालीन कमीशन से मुक्त किया जाता है:--

कप्तान अरिप्रस्थ के (वीएस-1133एच अब वी-611पी), 19 मार्च 2007, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2006, 22 दिसम्बर 2011

कप्तान समीर फारुखी (वीएस-1134एल अब वी-612एक्स), 19 मार्च 2007, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2006, 22 दिसम्बर 2011

कप्तान जे के माधुरिया (वीएस-1135एन अब वी-613ए), 19 मार्च 2007, 19 मार्च 2006, 19 मार्च 2006, 22 दिसम्बर 2011

कप्तान अनीस ए (वीएस-1126एम अब वी-614एच), 19 मार्च 2007, 19 मार्च 2007, 19 मार्च 2007, 22 दिसम्बर 2011

कप्तान अनूप मिश्रा (वीएस-1139एफ अब वी-615एल), 19 मार्च 2007, 19 मार्च 2007, 19 मार्च 2007, 22 दिसम्बर 2011

कप्तान प्रमोद यू (वीएस-1141एफ अब वी-616एन), 12 मई 2008, 12 मई 2008, 12 मई 2008, 22 दिसम्बर 2011

कप्तान राम रतन (वीएस-1142के अब वी-617डब्ल्यू), 12 मई 2008, 12 मई 2008, 12 मई 2008, 22 दिसम्बर 2011

कप्तान प्रिंस सी कुरियेन (वीएस-1145एक्स अब वी-618वाई), 12 मई 2008, 12 मई 2008, 12 मई 2008, 22 दिसम्बर 2011

दीपक नारंग
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 555, दिनांक 6 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल से ब्रिगे (व समकक्ष) के पद पर

एल सी पांडे (एमआर-05954पी), 15 फरवरी 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12 जनवरी 2011 से दी जाती है

ए जी आर महेंद्राकर (एमआर-04537डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है

एम अरोरा (एमआर-04259एन), 03 फरवरी 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जनवरी 2012 से दी जाती है

बी चौधरी (एमआर-05497एम), 17 मार्च 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है

यू बी मिश्रा (एमआर-05357ए), 27 फरवरी 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 फरवरी 2012 से दी जाती है

वी राघव, वीएसएम (एमआर-05858ए), 16 अप्रैल 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च 2012 से दी जाती है

आर के श्रीवास्तव (एमआर-05808पी), 16 अप्रैल 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 मार्च 2012 से दी जाती है

लेफ्ट कर्नल से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

एच एच पी सिंह (एनटीआर-16600एम), 01 अगस्त 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2011 से दी जाती है

एन मोहनन (एनटीआर-16630के), 01 मई 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2012 से दी जाती है

आर सी धूलिया (एनटीआर-16554एच), 01 मई 2012, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 मई 2012 से दी जाती है

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

सेना शाखा

सं. 556, दिनांक 6 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मोन द्वारा)

(आईसी-32945एक्स) मुकतुल हया, इंफैंट्री, 16 दिसम्बर 2004	(आईसी-43938एफ) राकेश वधावन, इंफैंट्री, 14 जून 2012
(आईसी-43537एम) एल सी कटोच, इंफैंट्री, 14 दिसम्बर 2011	(आईसी-43939के) एस बी हरलेकर, इंजीनियर्स, 14 जून 2012
(आईसी-43691एल) वी बी बोस, एएससी, 14 जून 2012	(आईसी-43943एम) संजय खत्री, इंफैंट्री, 14 जून 2012
(आईसी-43697एम) डी बी खत्री, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-43950एच) एस बी सिंह, सिग्नल्स, 14 जून 2012
(आईसी-43707एल) ए के मजूमदार, आर्टी, 14 जून 2012	(आईसी-43961पी) प्रवीण विक्रम, इंफैंट्री, 14 जून 2012
(आईसी-43708एन) पी आर पटनायक, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-43968वाई) भूपेश कुमार, इंफैंट्री, 14 जून 2012
(आईसी-43714एफ) जोश एम जोर्ज, आर्टी, 14 जून 2012	(आईसी-43986एफ) एस के समानता, सिग्नल्स, 14 जून 2012
(आईसी-43719ए) एसएस डाबास, गाड्स, 14 जून 2012	(आईसी-43993एक्स) वी रवि कुमार, एएससी, 14 जून 2012
(आईसी-43758वाई) थामस एम सी, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-45587डब्ल्यू) के एस पठनिया, एसी, 22 अप्रैल 2012
(आईसी-43763के) एस पी त्रिपाठी, एएडी, 14 जून 2012	(आईसी-47950ए) सुनील कुमार, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43765पी) नरेन्द्रा सिंह, गाड्स, 14 जून 2012	(आईसी-47963एक्स) पी ए डलावाई, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43806एन) आर राजेन, आर्टी, 14 जून 2012	(आईसी-47976पी) नरेन्द्रा कुमार, सिग्नल्स, 15 जून 2012
(आईसी-43826एफ) अनिल कुमार आर, आर्टी, 14 जून 2012	(आईसी-47977एक्स) विनोद हुलगोल, ईएमई, 15 जून 2012
(आईसी-43830के) बी स्वेसतियन, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-47992एम) एस के गिगू, ईएमई, 15 जून 2012
(आईसी-43839वाई) ए शर्मा, एएडी, 14 जून 2012	(आईसी-47996एच) ए मिश्रा, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43840एन) आर बी पटिल, एओसी, 14 जून 2012	(आईसी-47998एन) ए के अग्रवाल, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43845एम) संजीव सिंह, एओसी, 14 जून 2012	(आईसी-48013पी) आर बगलिया, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43852एच) आर विजयकुमार, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-48015ए) टी वेनुगोपाल, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43853एल) गुरजीत सिंह, एओसी, 14 जून 2012	(आईसी-48024एफ) विरेन्द्रा पटने, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43868एन) विश्वजीत दास, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-48025के) एम एन राव, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43876एम) मनजीत एन आर, एसी, 14 जून 2012	(आईसी-48026एम) वी एम स्वामी, सिग्नल्स, 15 जून 2012
(आईसी-43878एक्स) यू सुन्दरम्, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-48029ए) वी जी के कुमार, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43879ए) एस आर अहलावत, आर्टी, 14 जून 2012	(आईसी-48039के) आर के तिवारी, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43882ए) एस भट्टाचार्य, इंजीनियर्स, 14 जून 2012	(आईसी-43927पी) रमेश कुमार, इंफैंट्री, 14 जून 2012
(आईसी-43891एफ) पवन मल्होत्रा, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-48020एल) सी थनारासू, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
(आईसी-43894पी) विरेश बहादुर, इंफैंट्री, 14 जून 2012	(आईसी-37972एल) ए पराशर, इंफैंट्री, 11 नवम्बर 2008
(आईसी-43895एक्स) वी के नायर, एएडी, 14 जून 2012	(आईसी-42718एल) एस के पाण्डे, सिग्नल्स, 25 दिसम्बर 2008
(आईसी-43906वाई) आर के शर्मा, आर्टी, 14 जून 2012	(आईसी-43063डब्ल्यू) ए के शर्मा, इंजीनियर्स, 08 मार्च 2012
(आईसी-43916एच) आर के तलवार, एओसी, 14 जून 2012	(आईसी-43372वाई) एम के यादव, आर्टी, 14 जून 2012
(आईसी-43933एच) आर एस खुशवाहा, सिग्नल्स, 14 जून 2012	(आईसी-43508एक्स) एस शंकर, इंफैंट्री, 14 दिसम्बर 2011
	(आईसी-43832पी) सुखजीत सिंह, मैक इंफैंट्री, 14 जून 2012
	(आईसी-43907एफ) के के शर्मा, सिग्नल्स, 14 जून 2012
	(आईसी-43921एन) टी के राज, मैक इंफैंट्री, 14 जून 2012

(आईसी-43953डब्ल्यू) इन्द्रजीत सिंह, मैक इंफैन्ट्री, 14 जून 2012
 (आईसी-44443एफ) सी जाम्ब, इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2010
 (आईसी-45557वाई) विक्रमजीत सिंह, इंफैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012
 (आईसी-45576के) वी आर पी सिंह, ईएमई, 22 अप्रैल 2012
 (आईसी-45596एक्स) एस शरण, इंफैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012
 (आईसी-47970एन) रविन्द्र सिंह, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
 (आईसी-47983एल) गुरनाम सिंह, सिग्नल्स, 15 जून 2012
 (आईसी-48007एफ) ब्रजेश कुमार, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
 (आईसी-48041एफ) डी के शर्मा, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
 (आईसी-37985एच) अनिल चौधरी, एसी, 11 नवम्बर 2008
 (आईसी-43773एन) नरेश कुमार, एएससी, 14 जून 2012
 (आईसी-43931एक्स) वीरेन्द्र सिंह, एओसी, 14 जून 2012
 (आईसी-43988एम) पी के वालिया, इंफैन्ट्री, 14 जून 2012
 (आईसी-45426एन) सोहन सिंह, एसी, 24 अप्रैल 2011
 (आईसी-47975एन) आई के खुराना, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
 (आईसी-48010एफ) समीर मिश्रा, सिग्नल्स, 15 जून 2012
 (आईसी-48038एफ) जगदीश प्रसाद, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
 (आईसी-48042के) राजीव सचदेवा, इंजीनियर्स, 15 जून 2012
 (आईसी-43079एफ) सतप्रीत सिंह, इंफैन्ट्री, 08 जून 2011
 (आईसी-43155एच) सुरेश वी पी, एएससी, 08 जून 2011
 (आईसी-43917एल) एस एस एस रिजवी, आर्टी, 14 जून 2012
 (आईसी-45545के) ए एस डी शमयाल, इंफैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012

टी के दास
 उप निदेशक
 एमएस-8ए

थल सेना शाखा

सं. 557, दिनांक 7 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

(एमआर-05635एच) ले कर्नल ए दत्ता, 01 जून 2012

(एमआर-05636एल) ले कर्नल अनिल मलिक, 01 जून 2012

(एमआर-06304एन) ले कर्नल वी के हरित, 26 जून 2012

राजवीर सिंह

ब्रिगे

उपमहानिदेशक ससेचिसे (मासं)

सेना शाखा

सं. 558, दिनांक 7 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नामों के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से मूल लेफ्ट कर्नल के रैंक में

(वी-560एम) मेजर मनोज कुमार दास, आरवीसी, 10 मार्च 2012

(वी-561पी) मेजर विजय महतो, आरवीसी, 10 मार्च 2012

(वी-574एम) मेजर विवेक सक्सेना, आरवीसी, 10 मार्च 2012

दीपक नारंग

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 559, दिनांक 7 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

कन्नन के (एससी-00153), इंजीनियर्स

करमधीर बकरवाल (एससी-00154), इन्फैन्ट्री

डी अजीत कुमार (एससी-00155), आर्टी

जगदीस जी नायर (एससी-00158), इन्फैन्ट्री

प्रताप सिंह (एससी-00159), इंटर

राजदीओ सुनील (एससी-00160), एसी

हेम चन्द्र पाण्डे (एससी-00161), एडी आर्टी

निरुपम पुरकायस्था (एससी-00162), ईएमई

सुरिन्द्र सिंह (एससी-00163), एसी

महेन्द्र सिंह ढाका (एससी-00164), इन्फैन्ट्री

ईलैप्पयम सी (एससी-00165), आर्टी

के तेजा मोनी सिंहा (एससी-00166), इन्फैन्ट्री
 हरी सिंह राठोर (एससी-00167), एओसी
 सुख चैन सिंह (एससी-00168), इन्फैन्ट्री
 सुपिन्दर सिंह (एससी-00170), इन्फैन्ट्री
 हरीश कुमार (एससी-00171), आर्टी
 एस एस तनवर (एससी-00172), इंजीनियर्स
 पुरुषोत्तम सिंह (एससी-00173), इन्फैन्ट्री
 अरविन्द कुमार (एससी-00174), आर्टी
 सूरज भान (एससी-00175), एससी
 राज ए (एससी-00177), एडी आर्टी
 राजेश शर्मा (एससी-00178), एओसी
 रंधीर सिंह (एससी-00179), एससी
 सोनवने रमेश अर्जुन (एससी-00181), इंजीनियर्स
 एम एल रनवा (एससी-00183), सिग्नल्स
 एस डी शर्मा (एससी-00184), आर्टी
 रुपेन्द्र चंदेल (एससी-00185), एसी
 जितेन्द्र कुमार शर्मा (एससी-00186), आर्टी
 एस सी त्रिपाठी (एससी-00187), इन्फैन्ट्री
 दलबीर सिंह (एससी-00188), सिग्नल्स
 नरेन्द्रन के (एससी-00190), इंजीनियर्स
 महीपाल सिंह (एससी-00191), मेक इन्फैन्ट्री
 अतुल भटनागर (एससी-00192), ईएमई
 बलदेव राम (एससी-00193), इन्फैन्ट्री
 सुरेन्द्र एन (एससी-00194), इन्फैन्ट्री
 वरिन्दर पाल सिंह (एससी-00196), इन्फैन्ट्री
 हजुर सिंह (एससी-00197), सिग्नल्स
 गुलशन कुमार छोना (एससी-00198), इन्फैन्ट्री
 मनोज कुमार (एससी-00199), आर्टी
 उमा शंकर (एससी-00200), इन्फैन्ट्री
 जितेन्द्र गुरंग (एससी-00201), ईएमई
 डी गेनादरन (एससी-00202), इंजीनियर्स
 अमरजीत सिंह (एससी-00203), एसी
 राजिन्दर सिंह (एससी-00204), आर्टी

हरि कुमार (एससी-00205), इंजीनियर्स
 प्रकाश वी वी (एससी-00206), इन्फैन्ट्री
 रामा चन्द्रन जी (एससी-00207), एससी
 दिनेश कुमार सिंह (एससी-00208), आर्टी
 रमेशन ए के (एससी-00209), एओसी
 प्रीतम चन्द (एससी-00212), ईएमई
 थोमस एम जी (एससी-00213), एडी आर्टी
 विनोद जोशी (एससी-00214), इन्फैन्ट्री
 अजय कुमार तिवारी (एससी-00216), मेक इन्फैन्ट्री
 जयन पी एन (एससी-00219), इन्फैन्ट्री
 राजेन्द्रा बाबू एम के (एससी-00221), आर्टी
 सत्यावीर (एससी-00222), सिग्नल्स
 घन श्याम सिंह (एससी-00223), इन्फैन्ट्री
 सजीनधरन सी (एससी-00224), आर्टी
 जमीलुद्दीन (एससी-00226), एओसी
 केशा राम (एससी-00227), इन्फैन्ट्री
 एल बी सिंह (एससी-00228), इन्फैन्ट्री
 काला सिंह (एससी-00229), इन्फैन्ट्री
 डी एस दया नंद (एससी-00230), ईएमई
 फतेह चन्द्र ठाकुर (एससी-00232), ईएमई
 विनोद कुमार के वी (एससी-00233), आर्टी
 एम रंगा राव (एससी-00234), एससी
 सुरबीर सिंह (एससी-00236), इंजीनियर्स
 एम बी सिंह (एससी-00237), इन्फैन्ट्री
 जे पी हेगडे (एससी-00238), एससी
 माजु एम (एससी-00239), मेक इन्फैन्ट्री
 के पी श्रेष्ठा (एससी-00240), इन्फैन्ट्री
 थोमस मैथ्यु (एससी-00241), इन्फैन्ट्री
 ओ पी शर्मा (एससी-00242), सिग्नल्स
 पदमनाभान सी (एससी-00243), सिग्नल्स
 लखन सिंह (एससी-00245), इंजीनियर्स
 एच के नायर (एससी-00247), एससी
 रंजीत कुमार मोहंता (एससी-00249), इन्फैन्ट्री

पी वी यादव (एससी-00250), इन्फैन्ट्री
 जमाल अहमद (एससी-00251), एडी आर्टी
 नरेश चन्द्र (एससी-00252), इन्फैन्ट्री
 सुरेन्द्र सिंह (एससी-00254), आर्टी
 असीमुद्दीन (एससी-00256), ईएमई
 ए आर सुब्राननीयन (एससी-00259), इंजीनियर्स
 अवतार सिंह (एससी-00261), इंजीनियर्स
 वी विश्वेश्वरा प्रसाद (एससी-00262), एसी
 वी शिवा कुमार (एससी-00264), एसी
 मुरली टी टी (एससी-00265), इन्फैन्ट्री
 मोहनादास पी (एससी-00266), इन्फैन्ट्री
 हंस राज (एससी-00267), आर्टी
 संतोष कुमार (एससी-00268), एओसी

--14 जुलाई 2012

(आईसी-66537) विजेंद्र सिंह यादव, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66540) पंकज कुमार रावत, एएससी
 (आईसी-66541) के के सरीष, एएडी
 (आईसी-66542) रोहित जाखड़, एसी
 (आईसी-66544) कृष्णा कांत बाजपेई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66545) राहुल कसाना, इन्ट
 (आईसी-66546) जे गौरव शर्मा, आर्टी
 (आईसी-66548) त्रिवेदी निशीथ जयंतिलाल, आर्टी
 (आईसी-66549) मधूसूदन बी एस, आर्टी
 (आईसी-66551) धर्मवीर सिंह चौहान, आर्टी
 (आईसी-66552) रविन्द्र सिंह रावौड़, ईएमई
 (आईसी-66553) राजपाल, आर्टी
 (आईसी-66554) देशपांडे अनिरुद्ध बालकृष्ण, आर्टी
 (आईसी-66556) अरुण कुमार एम एस, आर्टी
 (आईसी-66557) जगमोहन मेहरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66558) सौरभ समीर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66559) आनंद सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66560) मोहित दुबे, एसी

(आईसी-66561) गिरीश ठाकुर, आर्टी
 (आईसी-66562) किसलय सिंह, आर्टी
 (आईसी-66564) वैभव वडेरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66566) कपिल शर्मा, ईएमई
 (आईसी-66567) पवन कुमार बोहरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66568) महिपाल सिंह, एओसी
 (आईसी-66569) लक्ष्य प्रताप सिंह शेखावत, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66570) उदयन प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66572) रणजीत सिंह पनवार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66573) सुदीप सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66576) हेमंत मेहता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66577) तरनदीप सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66579) राजिन्द्र जीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-66581) विनोद विश्वनाथ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66582) जगदीश सिंह सामंत, एसी
 (आईसी-66584) नितेश सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66585) रोवेन लेसली ब्रास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66586) आकाश शर्मा, आर्टी
 (आईसी-66587) अवधेश चौधरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66589) अजीत कुमार अग्रवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66590) अग्रंद बहुगुणा, एसी
 (आईसी-66591) निखिल जोषे, आर्टी
 (आईसी-66593) एस थेंखोमंग बाईटे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66594) सौरभ गुप्ता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66595) अर्नब बैनर्जी, आर्टी
 (आईसी-66596) मंजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66597) संदीप कौशल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66598) देवेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-66600) पटेल गोपीनंदन दिनेश कुमार, इन्ट
 (आईसी-66602) विवेक कुमार शर्मा, एसी
 (आईसी-66603) अभिनव मानेमबथ, आर्टी
 (आईसी-66605) सुरेन्द्र एस, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-66606) मनीष ध्यानी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66607) गौरव ए पागनीस, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66608) संदीप कुमार शर्मा, ईएमई
 (आईसी-66609) शैवाल श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66610) कृष्ण भंडारी, इन्ट
 (आईसी-66611) रजत बाली, आर्टी
 (आईसी-66612) अक्षय लाम्बा, एसी
 (आईसी-66613) पियुष कुमार छेत्री, आर्टी
 (आईसी-66614) निखिल धवन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66615) कुलदीप सिंह चंदी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66616) विकास कादियान, इन्ट
 (आईसी-66617) धनताज सिंह, एसी
 (आईसी-66618) अनिल कुमार चहार, इन्ट
 (आईसी-66619) हिम्मत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66620) रजत कुमार बिरमान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66621) जोनाथन एलेक्जेंडर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66622) के एन थीम्माया, आर्टी
 (आईसी-66623) सचिन भटनागर, आर्टी
 (आईसी-66624) अमित यादव, आर्टी
 (आईसी-66625) सूरज भान सिंह, आर्टी
 (आईसी-66626) निर्वाण बाजपेई, एसी
 (आईसी-66628) सौरभ बाली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66631) राज शोबी शाम्मी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66632) विनीत शेखर प्रेम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66635) गगनदीप सिंह राठौड़, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66637) निरंजन सिंह देवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66638) खलकार स्वपनिल शिवाजी, इंजीनियर्स
 (आईसी-66639) जिम्मीजेम्स, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66640) रमन अधिकारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66641) शशि कुमार के एस, एएडी
 (आईसी-66642) सकून, एसी
 (आईसी-66643) ब्लेसोन के डेनियल, एएडी
 (आईसी-66644) अजय कुमार भारद्वाज, आर्टी
 (आईसी-66645) आधव सचिन जगानाथ, ईएमई
 (आईसी-66646) अर्जुन कपूर, एसी
 (आईसी-66647) सुनील कुमार, आर्टी
 (आईसी-66648) राजेन्द्र नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66649) सौबम चलम्बा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66650) प्रदीप कुमार यादव, एएडी
 (आईसी-66652) प्रवीण आर, एएडी
 (आईसी-66653) विकास गुलेरिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66654) हेमेन्द्र वासुदेवा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66655) रोशन कृष्णप्पा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66656) शशांक शेखर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66659) नवीन चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66660) अमित कुमार शुक्ला, आर्टी
 (आईसी-66662) सुरेश कुमार डे, आर्टी
 (आईसी-66663) चन्द्रसेनन बी आर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66666) शिव नारायण शुक्ला, इंजीनियर्स
 (आईसी-66667) कुलकर्णी ओंकार किशोर, आर्टी
 (आईसी-66668) रुद्रशीष पाण्डेय, आर्टी
 (आईसी-66669) रणदिवे संदीप नंदकुमार, आर्टी
 (आईसी-66670) अभिलाष के एम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66672) अवनीश पी सिंह, आर्टी
 (आईसी-66674) सुदीप सिंह, आर्टी
 (आईसी-66676) रिच्ची अश्विन एस, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66678) राहुल देव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66680) राहुल बघेल, ईएमई
 (आईसी-66681) प्रदीप सिंह गोहिल, एसी
 (आईसी-66682) रंजीत कुमार झा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66683) शंकर पति बनर्जी, आर्टी
 (आईसी-66684) दीपक सुयाल, इन्फैन्ट्री

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

(एसएस-41513) सुधीर गुलिया, मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41514) भास्कर राय, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41520) त्रिपुरारी सिंह, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41526) सगोलसेम बिक्रम सिंह, एएडी, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41530) हरनीत सिंह सांगा, मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41537) शमशेर सिंह पन्नु, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41549) सौरभ शर्मा, एएडी, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41555) दुष्यन्त आर, मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41560) लक्ष्मण सिंह, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41564) संजीव जी, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41569) अंकुश प्रताप, इन्ट, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41579) मुकेश शर्मा, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41586) देविन्दर कुमार भगत, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41597) जितेन्द्र नरुका, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41601) सुकान्त कृष्णा जोशी, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41635) चंद्र शेखर यादव, आर्टी, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41638) गौरव पान्डे, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41641) गोलवेलकर हेमांग कमलाकर, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41651) सुबोध सूदन, मैक, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41678) अक्षय दीप शर्मा, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41680) पुनीत आनंद मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41684) सी अरविन्द रेड्डी, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41691) रोहित कुमार दलाल, एओसी, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41692) प्रतीक गुप्ता, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41699) तन्मय राहा रॉय, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41703) हरप्रीत सिंह वालिया, एएससी, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41708) टी संतोष, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41711) दिग्विजय जुयाल, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

(एसएस-41724) रोहित अत्रे, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2005, एसएससी-80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2012

विहग स्नेहल
उप निदेशक

सेना शाखा

सं 560, दिनांक 10 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नामों के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मूल कप्तान के रैंक में

1 वी-606के कप्तान फिलिप वर्गीस, आरवीसी, 10 दिसम्बर 2010 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 20 जून 2005

वी-607एम कप्तान राहुल दूबे, आरवीसी, 10 दिसम्बर 2010 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 19 मार्च 2006

वी-608पी कप्तान धनंजय सिंह, आरवीसी, 10 दिसम्बर 2010 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 19 मार्च 2006

वी-609एक्स कप्तान डी एस मंडोत्रा, आरवीसी, 10 दिसम्बर 2010 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 19 मार्च 2007

वी-610एम कप्तान के सेंथिल कुमार, आरवीसी, 10 दिसम्बर 2010 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 19 मार्च 2007

सेना डाकू सेवा कोर

नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी) से सूबेदार/लिपिक (एसडी)

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) सतबीर सिंह (जेसी-834418डब्ल्यू), 12 जुलाई 2012 *

*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) रंजीत सिंह (जेसी-834444एक्स), 02 जुलाई 2012 *

*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

तोपखाना अभिलेख

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी/एसकेटी) के पद में

हवलदार (क्लर्क एसडी) राम स्वरूप (सं. 15121696एल अब जेसी-278022पी), 01 मार्च 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) आनंद बल्लभ भट्ट (सं. 14410971एच अब जेसी-277893एच), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) पाटिल नारायण पुंडलिक (सं. 14411319के अब जेसी-278229पी), 09 जून 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) मनोज कुमार (सं. 14411697एच अब जेसी-277894एल), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) कृष्णा गोपाल ससमल (सं. 14411810एम अब जेसी-278023एक्स), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) अशोक कुमार पाठक (सं. 15121202डब्ल्यू अब जेसी-277895एन), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) राज कृष्ण (सं. 15121288ए अब जेसी-278024ए), 19 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) सुरेंद्र सिंह (सं. 15121693एक्स अब जेसी-277896डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) सुर्यनारायण अनेम (सं. 15121475वाई अब जेसी-278025एच), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) राघवेंद्रा सिंह (सं. 15121558के अब जेसी-277897वाई), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) गौतम साहा (सं. 15121737के अब जेसी-277898एफ), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) पूरण चंद (सं. 15121778एन अब जेसी-277899के), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) अरविंद कुमार (सं. 14407272एम अब जेसी-278144वाई), 01 मई 2012/01 अगस्त 2011 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) भूरी सिंह (सं. 15121846डब्ल्यू अब जेसी-278026एल), 01 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) अमर चंद्र कंदार (सं. 15120796के अब जेसी-278027एन), 01 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) राम नंद (सं. 15121850वाई अब जेसी-278230के), 01 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) चौधरी किरण कुमार दयाराम (सं. 15121905एक्स अब जेसी-278145एफ), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) संदीप कुमार अवस्थी (सं. 15121907एच अब जेसी-278231एम), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) भीष्म सिंह (सं. 15121908एल अब जेसी-278232पी), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) रासकर राजेंद्र कृष्णा राव (सं. 15121977एफ अब जेसी-278233एक्स), 10 जून 2012/01 जून 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) पदालकर दशरथ बीरबल (सं. 15121984एक्स अब जेसी-278146के), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) राकेश कुमार (सं. 15115459एल अब जेसी-278147एम), 01 जून 2012

हवलदार (एसकेटी) गुरदेव सिंह संधु (सं. 15119460एक्स अब जेसी-277900एन), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (एसकेटी) अश्वनी कुमार (सं. 14409599के अब जेसी-277901डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) कालेबेरे सचिन अनंत राव (सं. 15121992डब्ल्यू अब जेसी-278234ए), 02 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012 *

हवलदार (क्लर्क एसडी) शिंदे विकास गुलाब राव (सं. 15122003पी अब जेसी-278235एच), 02 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012 *

हवलदार (एसकेटी) लक्ष्मी नारायण (सं. 14410949एक्स अब जेसी-278028डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (एसकेटी) दिनेश तिवारी (सं. 15121255पी अब जेसी-278029वाई), 09 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (एसकेटी) मुरारी लाल (सं. 14411962एन अब जेसी-278030एन), 01 मई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) सुबिमल मोहंता (सं. 14411270वाई अब जेसी-278031डब्ल्यू), 15 मई 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (एसकेटी) परीमल सरकार (सं. 14405549एफ अब जेसी-278236एल), 01 जून 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (एसकेटी) उदयवीर सिंह (सं. 14411624डब्ल्यू अब जेसी-278148पी), 01 जून 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार (एसकेटी) संजीव कुमार डडवाल (सं. 15121327एन अब जेसी-278237एन), 01 जून 2012

हवलदार (एसकेटी) रवींद्र कुमार साहू (सं. 14409908एफ अब जेसी-278238डब्ल्यू), 01 जून 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) नीरज कुमार सिंह (सं. 15122451एफ अब जेसी-278239वाई), 02 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012 *

हवलदार (एसकेटी) मनोज कुमार (सं. 15121498ए अब जेसी-278240एन), 01 जुलाई 2012

हवलदार (एसकेटी) टी दुर्गा प्रसाद (सं. 15118945एन अब जेसी-278241डब्ल्यू), 02 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012 *

हवलदार (एसकेटी) संग्राम सिंह राठोर (सं. 15117237पी अब जेसी-278242वाई), 01 जुलाई 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) गोबर्धन दोलई (सं. 15121698डब्ल्यू अब जेसी-278243एफ), 02 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012 *

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

नायब सूबेदार के पद पर

हवलदार सेलवम पी (सं. 15121077एक्स अब जेसी-277902वाई), 28 फरवरी 2012/10 नवम्बर 2011 *

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15120124एक्स अब जेसी-277903एफ), 10 फरवरी 2012/20 नवम्बर 2011 *

हवलदार योगेन्द्र महातो (सं. 15110851एफ अब जेसी-277904के), 28 फरवरी 2012/21 नवम्बर 2011 *

हवलदार दिलप कुमार सरकार (सं. 14405343के अब जेसी-277905एम), 27 फरवरी 2012/29 नवम्बर 2011 *

हवलदार सुर्यवंशी युवराज विठ्ठलराव (सं. 15110681एच अब जेसी-277906पी), 13 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार वेन्कटेशन के (सं. 14414817एफ अब जेसी-277907एक्स), 15 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार हरमोहन सिंह (सं. 14402329एम अब जेसी-277908ए), 26 फरवरी 2012/14 दिसम्बर 2011 *

हवलदार कैलाश सिंह (सं. 13978292डब्ल्यू अब जेसी-277909एच), 16 फरवरी 2012/27 दिसम्बर 2011 *

हवलदार श्याम सिंह (सं. 14403260ए अब जेसी-277910एक्स), 13 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार तुषार कान्ती मण्डल (सं. 15122515एफ अब जेसी-277911ए), 10 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार हरी पदा दास (सं. 14415438एक्स अब जेसी-277912एच), 10 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार नानक चन्द (सं. 14429083एच अब जेसी-277913एल), 07 मार्च 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार पृथ्वी सिंह (सं. 14410518एल अब जेसी-277914एच), 01 मार्च 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार विजयी सिंह यादव (सं. 14403264डब्ल्यू अब जेसी-277915डब्ल्यू), 26 मार्च 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 14418755के अब जेसी-277916वाई), 14 मार्च 2012/21 जनवरी 2012 *

हवलदार शिव कुमार एस (सं. 14411840के अब जेसी-277917एफ), 09 मार्च 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार इ पी रमेशन (सं. 14403584एल अब जेसी-277918के), 18 फरवरी 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार मुहीनी कोनवार (सं. 13979552एच अब जेसी-277919एम), 06 फरवरी 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार धर्मेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 14412302एच अब जेसी-277920एफ), 22 फरवरी 2012/23 नवम्बर 2011 *

हवलदार राजपूत राजेश सिंह (सं. 14408094एफ अब जेसी-277921के), 06 मार्च 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार मघा राम (सं. 14409112एल अब जेसी-277922एम), 10 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार शशी पी (सं. 14402135के अब जेसी-277923पी), 17 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार दिनेश कुमार मेहता (सं. 14408275एम अब जेसी-277924एक्स), 17 फरवरी 2012/08 दिसम्बर 2011 *

हवलदार वी नारायणन (सं. 14404282एल अब जेसी-277925ए), 05 मार्च 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार जॉय कुमार सिंघा (सं. 14404011एन अब जेसी-277926एच), 11 मार्च 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 15119709वाई अब जेसी-277927एल), 06 मार्च 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार हवा सिंह (सं. 15131586के अब जेसी-277928एन), 29 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार मनोज कुमार (सं. 14410016एच अब जेसी-277929डब्ल्यू), 17 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 15117213एल अब जेसी-277930एल), 25 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार सुभाष सिंह तोमर (सं. 14401461ए अब जेसी-277931एन), 16 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार मारम रेड्डी सुब्बा रेड्डी (सं. 14404702ए अब जेसी-277932डब्ल्यू), 06 मार्च 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार मस्तमारादी बसप्पा (सं. 15122129पी अब जेसी-277933वाई), 27 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार भीम सिंह (सं. 14420325वाई अब जेसी-277960एम), 02 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार मनिकन्त पी (सं. 14424309वाई अब जेसी-277761पी),
02 फरवरी 2012/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार पुरन सिंह (सं. 15116052एफ अब जेसी-277762एक्स),
25 दिसम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 15109579एन अब जेसी-277763ए),
10 जनवरी 2012/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14413320एक्स अब जेसी-277764एच),
24 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार सुखवन्त सिंह (सं. 15118398के अब जेसी-277765एल),
21 जनवरी 2012/18 अक्टूबर 2011 *

हवलदार जयेश कुमार एस पी (सं. 15128099वाई अब जेसी-277766एन), 08 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार कृष्णन पाल (सं. 15117817के अब जेसी-277767डब्ल्यू),
05 जनवरी 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14397225वाई अब जेसी-277768वाई),
17 जनवरी 2012/26 नवम्बर 2011 *

हवलदार सुभाष जी (सं. 15135387एन अब जेसी-277769एफ),
18 फरवरी 2012/30 नवम्बर 2011 *

हवलदार भाग्यधार राय (सं. 14405299एल अब जेसी-277770डब्ल्यू),
05 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार अवदेश सिंह (सं. 15115278ए अब जेसी-277771वाई),
15 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार काले भाऊसाहेब दादाबा (सं. 15122025एन अब जेसी-277772एफ), 17 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार कडभाने उद्धव विलास (सं. 15121751डब्ल्यू अब जेसी-277773के), 17 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार रामलाल गुर्जर (सं. 14410734वाई अब जेसी-277774एम),
23 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार स्वर्णजीत सिंह (सं. 15117727एच अब जेसी-277775पी),
03 मार्च 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार पी मुथू कृष्णन (सं. 15134584के अब जेसी-277776एक्स),
04 जून 2011/20 मई 2011 *

हवलदार कृष्णा भुषण सिंह (सं. 14420277के अब जेसी-277777ए),
26 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार दक्षिणा मुर्ती के (सं. 14432535एल अब जेसी-277778एच),
09 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार बिर्नाय आर (सं. 14426869के अब जेसी-277779एल),
13 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार मानस रंजन नायक (सं. 15147428वाई अब जेसी-277780ए), 17 जनवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार रामवीर सिंह (सं. 15126228पी अब जेसी-277781एच),
05 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार ग्यासी लाल (सं. 15117627एक्स अब जेसी-277782एल),
03 जनवरी 2012/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार झायमल सिंह (सं. 14408554एक्स अब जेसी-277783एन),
23 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार गोपाल सिंह चौहान (सं. 14408013डब्ल्यू अब जेसी-277784डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार अमरेन्द्र कुमार (सं. 15120149के अब जेसी-277785वाई),
14 जनवरी 2012/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 15113743एच अब जेसी-277786एफ),
01 जनवरी 2012/03 नवम्बर 2011 *

हवलदार नरेन्द्र सिंह सिसोदिया (सं. 14424356डब्ल्यू अब जेसी-277787के), 11 जनवरी 2012/07 नवम्बर 2011 *

हवलदार मंगल सिंह (सं. 14401880एक्स अब जेसी-277788एम),
11 जनवरी 2012/09 नवम्बर 2011 *

हवलदार सर्वेश सिंह (सं. 14402453एन अब जेसी-277789पी),
11 जनवरी 2012/11 नवम्बर 2011 *

हवलदार रनजीत राम (सं. 14407074एफ अब जेसी-277790के),
17 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार टी करुणाकरन (सं. 14397981एल अब जेसी-277791एम),
18 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार पाठाडे तुकाराम विठ्ठलराव (सं. 15121950के अब जेसी-277792पी), 17 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार पदन कुमार धाल (सं. 15122158के अब जेसी-277793एक्स),
16 फरवरी 2012/18 जनवरी 2012 *

हवलदार रमेश के (सं. 15118338पी अब जेसी-277794ए),
01 फरवरी 2012

हवलदार एस बालगुरु (सं. 14415490ए अब जेसी-277795एच),
18 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार भरत सिंह (सं. 15120136एम अब जेसी-277796एल),
16 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14402220एम अब जेसी-277708के),
09 जनवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार इंगले बालू लक्ष्मण (सं. 15122498एम अब जेसी-277709एम), 02 फरवरी 2012/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15115484के अब जेसी-277710एफ),
11 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 14401907के अब जेसी-277711के),
26 जनवरी 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार रावैल सिंह (सं. 15108590ए अब जेसी-277712एम),
26 जनवरी 2012/01 नवम्बर 2011*

हवलदार के वेत्री वेलन (सं. 15124054एफ अब जेसी-277713पी),
23 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार राकेश यादव (सं. 14402303एक्स अब जेसी-277714एक्स),
16 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार पान सिंह (सं. 14402406डब्ल्यू अब जेसी-277715ए),
27 जनवरी 2012/10 दिसम्बर 2011*

हवलदार मोती लाल (सं. 14396193पी अब जेसी-277716एच),
17 जनवरी 2012/15 दिसम्बर 2011*

हवलदार संजय कुमार तिवारी (सं. 15118496के अब जेसी-277717एल), 08 फरवरी 2012/16 दिसम्बर 2011*

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 15112508एक्स अब जेसी-277718एन),
16 जनवरी 2012/31 दिसम्बर 2011*

हवलदार वाई वेन्कटा सुब्बा रेड्डी (सं. 15113248के अब जेसी-277719डब्ल्यू), 23 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार शिव किरपाल सिंह (सं. 15117762एल अब जेसी-277720एल), 26 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार भूप सिंह (सं. 15113522डब्ल्यू अब जेसी-277721एन),
21 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार शंतनु मैथी (सं. 15119257एफ अब जेसी-277722डब्ल्यू),
02 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार वेद पाल सिंह भदौरिया (सं. 14409180वाई अब जेसी-277723वाई), 01 फरवरी 2012

हवलदार हरविन्दर सिंह (सं. 14401452वाई अब जेसी-277724वाई),
15 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012*

हवलदार तांबे अशोक नानासाहेब (सं. 15127911एफ अब जेसी-277725के), 04 फरवरी 2012/11 नवम्बर 2011*

हवलदार पाटील हनमंत नारायण (सं. 15126017एम अब जेसी-277726एम), 04 फरवरी 2012/28 नवम्बर 2011*

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 15115053एक्स अब जेसी-277727पी),
01 फरवरी 2012/30 नवम्बर 2011*

हवलदार अमिया कुमार पटगीरी (सं. 14399644पी अब जेसी-277728एक्स), 22 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार राम धारी (सं. 15116252एक्स अब जेसी-277729ए),
28 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार श्री मुकेश कुमार शर्मा (सं. 15116157एल अब जेसी-277730पी), 08 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार मर्कण्डेय पाण्डेय (सं. 15118491एल अब जेसी-277731एक्स), 08 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार रमेश कुमार के (सं. 15116551डब्ल्यू अब जेसी-277732ए),
30 जनवरी 2012/13 दिसम्बर 2011*

हवलदार मदन लाल (सं. 14409570एफ अब जेसी-277733एच),
28 जनवरी 2012/19 दिसम्बर 2011*

हवलदार सतजीव (सं. 15116198पी अब जेसी-277734एल),
05 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार महिपाल (सं. 15116464एच अब जेसी-277735एन),
01 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार धोरात फुलचंद रामनाथ (सं. 15113104एफ अब जेसी-277736डब्ल्यू), 18 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार के सत्यनारायण (सं. 15113951एक्स अब जेसी-277737वाई),
01 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 14395448एक्स अब जेसी-277738एफ),
02 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार पी राथीना सामी (सं. 14400458एन अब जेसी-277739के),
22 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

हवलदार मदन सिंह (सं. 14410876डब्ल्यू अब जेसी-277740वाई),
01 फरवरी 2012

हवलदार बरजिन्दर सिंह (सं. 15113098वाई अब जेसी-277677पी),
22 जनवरी 2012/06 अक्टूबर 2011*

हवलदार राजेश कुमार सिंह (सं. 15118504एक्स अब जेसी-277678एक्स), 15 जनवरी 2012/06 अक्टूबर 2011*

हवलदार सतीश कुमार स्वामी (सं. 15128585डब्ल्यू अब जेसी-277679ए), 16 जनवरी 2012/12 नवम्बर 2011*

हवलदार जी सारंगपानी (सं. 14406866पी अब जेसी-277680पी),
13 जनवरी 2012/26 नवम्बर 2011*

हवलदार जय सिंह कचवा (सं. 14408022एक्स अब जेसी-277681एक्स), 01 जनवरी 2012/10 दिसम्बर 2011*

हवलदार हरमेश कुमार (सं. 15118786एफ अब जेसी-277682ए),
11 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार लखवीर सिंह (सं. 15120027ए अब जेसी-277683एच),
16 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार कुलतार सिंह (सं. 15120050एन अब जेसी-277684एल),
16 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार जग भान सिंह (सं. 14403318एम अब जेसी-277685एन),
16 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार महानन्द दास (सं. 15121549एच अब जेसी-277686डब्ल्यू),
10 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार मुकेश चन्द यादव (सं. 14398912एफ अब जेसी-277687वाई), 12 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011*

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 14421177एल अब जेसी-277688एफ),
08 जनवरी 2012/08 दिसम्बर 2011 *

हवलदार कम्बाला श्रीनिवासुलु (सं. 15116379ए अब जेसी-277689के), 21 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार दलीप सिंह (सं. 14412801एक्स अब जेसी-277690वाई),
14 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार नितेश कुमार नायक (सं. 15124311एन अब जेसी-277691एफ), 17 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार बनवारी लाल यादव (सं. 15118672 डब्ल्यू अब जेसी-277692के), 12 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार संकरन कुट्टी एम (सं. 14407148एल अब जेसी-277693एम), 21 दिसम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार लखवीर सिंह (सं. 15121353पी अब जेसी-277694पी),
24 दिसम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार जाधव लालासाहेब अजीनाथ (सं. 15128450पी अब जेसी-277695एक्स), 29 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार राजपूत सतेन्द्र सिंह मोहन सिंह (सं. 15126537एक्स अब जेसी-277696ए), 24 दिसम्बर 2011/14 अक्टूबर 2011 *

हवलदार शरमन लाल जाट (सं. 15120660ए अब जेसी-277697एच), 14 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार धामोधरन के (सं. 15121331डब्ल्यू अब जेसी-277698एल),
19 जनवरी 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 15112510पी अब जेसी-277699एन),
14 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार राकेश कुमार यादव (सं. 15148724डब्ल्यू अब जेसी-277700एक्स), 31 दिसम्बर 2011/29 नवम्बर 2011 *

हवलदार राजेन्द्र कुमार पाण्डा (सं. 15114229एल अब जेसी-277701ए), 27 दिसम्बर 2011/30 नवम्बर 2011 *

हवलदार हरीश बाबू (सं. 15125146ए अब जेसी-277702एच),
06 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार दिलीप कुमार के एम (सं. 15114350वाई अब जेसी-277703एल), 19 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार शशी कान्त (सं. 14403905एक्स अब जेसी-277704एन),
18 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार अमर जीत (सं. 14400672डब्ल्यू अब जेसी-277705डब्ल्यू),
05 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार राम वीर (सं. 15111500वाई अब जेसी-277706वाई),
17 जनवरी 2012/15 दिसम्बर 2011 *

हवलदार पवन कुमार वर्मा (सं. 15113868ए अब जेसी-277707एफ),
27 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार देश राज (सं. 14422039डब्ल्यू अब जेसी-277645एम),
27 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार विकास कुमार (सं. 15131923एन अब जेसी-277646पी),
15 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार धर्मवीर (सं. 14420134के अब जेसी-277647एक्स),
10 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार हरप्रीत सिंह (सं. 14420304एच अब जेसी-277648ए),
12 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14427195के अब जेसी-277649एच),
13 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार निर्मल कुमार (सं. 14430705एल अब जेसी-277650एक्स),
11 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार सतीश कुमार (सं. 14429015पी अब जेसी-277651ए),
08 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार अखिलेश कुमार सिंह (सं. 15128509के अब जेसी-277652एच), 07 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार अरुण जोसेफ (सं. 15135665डब्ल्यू अब जेसी-277653एल),
07 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार तामबिले अप्पा अभिमान (सं. 15145869डब्ल्यू अब जेसी-277654एन), 19 जनवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार परिया सामी ए (सं. 15150126एक्स अब जेसी-277655डब्ल्यू),
18 जनवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार भास्करन एन (सं. 14427021के अब जेसी-277656वाई),
03 फरवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 14422784डब्ल्यू अब जेसी-277657एफ),
15 जनवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार पी सेल्वाराज (सं. 15132680ए अब जेसी-277658के),
18 जनवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार दीपक कुमार गिरी (सं. 15148106एल अब जेसी-277659एम),
14 जनवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार शीजोमन अगस्तीन (सं. 15147610वाई अब जेसी-277660एफ),
10 फरवरी 2012/24 दिसम्बर 2011 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14400876एच अब जेसी-277661के),
12 दिसम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार राधा चरण सिंह चौधरी (सं. 14410435ए अब जेसी-277662एम), 13 नवम्बर 2011/13 अक्टूबर 2011 *

हवलदार सुखपाल सिंह (सं. 14401400एच अब जेसी-277663पी),
01 नवम्बर 2011

हवलदार ब्रम्ह प्रकाश (सं. 15111937एम अब जेसी-277664एक्स),
29 दिसम्बर 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार शैलेन्द्र कुमार (सं. 15125759ए अब जेसी-277665ए),
14 जनवरी 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार जितेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14410473डब्ल्यू अब जेसी-277666एच), 09 जनवरी 2012/11 नवम्बर 2011 *

हवलदार रुमल यादव (सं. 15112990के अब जेसी-277667एल),
03 फरवरी 2012/15 नवम्बर 2011 *

हवलदार मुजावार रुस्तम खुदबुदीन (सं. 15115869एफ अब जेसी-277668एन), 12 जनवरी 2011/22 नवम्बर 2011 *

हवलदार अरविंद सिंह यादव (सं. 15123688एल अब जेसी-277669डब्ल्यू), 31 दिसम्बर 2011/30 नवम्बर 2011 *

हवलदार सुरिन्दर सिंह यादव (सं. 15113844डब्ल्यू अब जेसी-277670एल), 09 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार किशोर सिंह (सं. 14413290एल अब जेसी-277671एन),
26 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार तुलेश्वर प्रसाद (सं. 14423317एल अब जेसी-277672डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार रिसल सिंह शेखावत (सं. 15112175डब्ल्यू अब जेसी-277673वाई), 29 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार शिव दत्त (सं. 15121217वाई अब जेसी-277674एफ),
11 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार राम स्वरूप रावत (सं. 13978294एफ अब जेसी-277675के), 03 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार चामेल सिंह (सं. 14397977एच अब जेसी-277676एम),
03 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 15124888एन अब जेसी-277613के),
27 दिसम्बर 2011/15 अक्तूबर 2011 *

हवलदार अस्वले राजाराम गुलाब (सं. 15126930ए अब जेसी-277614एम), 27 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 15118964वाई अब जेसी-277615पी),
30 दिसम्बर 2011/05 नवम्बर 2011 *

हवलदार पाटील गणेश रघुनाथ (सं. 15124813डब्ल्यू अब जेसी-277616एक्स), 27 दिसम्बर 2011/09 नवम्बर 2011 *

हवलदार उबरहान्डे विष्णू सन्तोष (सं. 15123691एल अब जेसी-277617ए), 27 दिसम्बर 2011/14 नवम्बर 2011 *

हवलदार शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय (सं. 1511279एक्स अब जेसी-277618ए), 25 दिसम्बर 2011/17 नवम्बर 2011 *

हवलदार अशोक कुमार यादव (सं. 15111749एल अब जेसी-277619एल), 21 दिसम्बर 2011/19 नवम्बर 2011 *

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 15123669ए अब जेसी-277620ए),
27 दिसम्बर 2011/19 नवम्बर 2011 *

हवलदार धर्म वीर सिंह (सं. 15114238एम अब जेसी-277621एच),
29 दिसम्बर 2011/29 नवम्बर 2011 *

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 15120926एफ अब जेसी-277622एल),
05 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार कलाश कुमार (सं. 15120677एन अब जेसी-277623एन),
05 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार प्रेम चन्द (सं. 15121815डब्ल्यू अब जेसी-277624डब्ल्यू),
26 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार जगत परकाश (सं. 15118960एच अब जेसी-277625वाई),
30 दिसम्बर 2011/06 दिसम्बर 2011 *

हवलदार देवेन्द्र कुमार दीक्षित (सं. 15114230ए अब जेसी-277626एफ), 27 दिसम्बर 2011/18 दिसम्बर 2011 *

हवलदार सुनील कुमार (सं. 14410319एक्स अब जेसी-277627के),
01 जनवरी 2012

हवलदार हंस राज यादव (सं. 14405729के अब जेसी-277628एम),
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार शाजुमोन टी जे (सं. 15110011एफ अब जेसी-277629पी),
06 जून 2011/20 अप्रैल 2011 *

हवलदार रविन्द्र मुदुली (सं. 14410489एफ अब जेसी-277630के),
07 दिसम्बर 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार सोनापथी गोविन्दराव (सं. 14400740वाई अब जेसी-277631एम), 08 दिसम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार सिध्दप्पा हुंडारे (सं. 15123761वाई अब जेसी-277632पी),
05 दिसम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार विजय कुमार एन (सं. 15120182एफ अब जेसी-277633एक्स),
25 नवम्बर 2011/01 अक्तूबर 2011 *

हवलदार अनिरुध सिंह (सं. 14402207एच अब जेसी-277634ए),
13 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 15124121एफ अब जेसी-277635एच),
08 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार श्री राम राव (सं. 15118568एच अब जेसी-277636एल),
31 दिसम्बर 2011/03 नवम्बर 2011 *

हवलदार अरविन्द कुमार शर्मा (सं. 15120691ए अब जेसी-277637एन), 14 जनवरी 2012/15 नवम्बर 2011 *

हवलदार श्रवण कुमार खच्चर (सं. 15110094एक्स अब जेसी-277638डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2011/15 दिसम्बर 2011 *

हवलदार कुंवर सिंह (सं. 14405891एफ अब जेसी-277639वाई),
02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार रविन्द्र सिंह यादव (सं. 15120490एफ अब जेसी-277640एन), 01 जनवरी 2012

हवलदार बरमेश्वर सिंह यादव (सं. 15112461एक्स अब जेसी-277641डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

हवलदार बेरड बाबासाहेब सुकदेव (सं. 14410810ए अब जेसी-277642वाई), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार नीरज कुमार यादव (सं. 14409936एन अब जेसी-277643एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार कुशल राम (सं. 15111889एक्स अब जेसी-277644के), 01 जनवरी 2012

हवलदार गुन सागर सिंह (सं. 14416566एफ अब जेसी-277557डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2011/17 अगस्त 2011 *

हवलदार गुरतिन्दर सिंह (सं. 15120031एच अब जेसी-277558वाई), 21 दिसम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार नादर चन्द नन्दी (सं. 15125105डब्ल्यू अब जेसी-277559एफ), 16 नवम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14415335वाई अब जेसी-277560डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार केशव सिंह तोमर (सं. 15113372एल अब जेसी-277561वाई), 05 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार गोहिल गेम् भई मुंगल भाई (सं. 15125850डब्ल्यू अब जेसी-277562एफ), 27 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार पाटील अक्रम आनंद (सं. 8033540डब्ल्यू अब जेसी-277563के), 18 दिसम्बर 2011/02 अक्टूबर 2011 *

हवलदार धीरेन बोरा (सं. 15112759एफ अब जेसी-277564एम), 16 नवम्बर 2011/09 अक्टूबर 2011 *

हवलदार अनिल कुमार एम एम (सं. 15128433पी अब जेसी-277565पी), 19 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार के राजा (सं. 15128627एक्स अब जेसी-277566एक्स), 29 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार राजेश पी वी (सं. 15129066ए अब जेसी-277567ए), 29 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार सतीश कुमार (सं. 14406229वाई अब जेसी-277568एच), 14 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार मदन लाल शर्मा (सं. 15112446एच अब जेसी-277569एल), 23 नवम्बर 2011/26 अक्टूबर 2011 *

हवलदार सामेशुला वेन्कटेश्वरालू (सं. 15124390एन अब जेसी-277570ए), 09 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार राजेश्वर प्रसाद सिंह (सं. 15114927एन अब जेसी-277571एच), 19 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार विनोद कुमार शर्मा (सं. 15113942डब्ल्यू अब जेसी-277572एल), 03 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार शिव कुमार (सं. 14411401वाई अब जेसी-277573एन), 20 अगस्त 2011/01 अप्रैल 2011 *

हवलदार मधी शंकरा राव (सं. 14400739के अब जेसी-277574डब्ल्यू), 21 सितम्बर 2011/29 जुलाई 2011 *

हवलदार शेख जे बाबावली (सं. 14406340एच अब जेसी-277575वाई), 15 नवम्बर 2011/24 सितम्बर 2011 *

हवलदार लकी राकेश शर्मा (सं. 15120190ए अब जेसी-277576एफ), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 15124709एच अब जेसी-277577के), 07 दिसम्बर 2011/03 अक्टूबर 2011 *

हवलदार बिपन चन्द (सं. 15111904एफ अब जेसी-277578एम), 04 जनवरी 2012/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार अशोक सिंह (सं. 15111920वाई अब जेसी-277579पी), 24 दिसम्बर 2011/17 अक्टूबर 2011 *

हवलदार निंबालकर ब्रम्हदेव शंकर (सं. 14411843एक्स अब जेसी-277580के), 19 दिसम्बर 2011/22 अक्टूबर 2011 *

हवलदार रवी चन्द्रन सी (सं. 15118305के अब जेसी-277581एम), 22 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार मोनी कुमार के एस (सं. 14399661पी अब जेसी-277582पी), 19 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार शीलेन्द्र सिंह (सं. 15125126एम अब जेसी-277583एक्स), 24 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार रामेश्वर लाल आनंद (सं. 15125682एच अब जेसी-277584ए), 24 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार चव्हाण प्रशांत राजापाल (सं. 15120577एच अब जेसी-277585एच), 21 दिसम्बर 2011/16 नवम्बर 2011 *

हवलदार जोंग भादुर सिंह (सं. 15116915एक्स अब जेसी-277586एल), 22 दिसम्बर 2011/23 नवम्बर 2011 *

हवलदार कोकाटे राजकुमार अमृतराव (सं. 14410237पी अब जेसी-277587एन), 17 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार शिव कुमार (सं. 15124435एच अब जेसी-277588डब्ल्यू), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार राम सिंह (सं. 15120103एफ अब जेसी-278112डब्ल्यू), 14 मार्च 2012/06 अक्टूबर 2011 *

हवलदार मांगे राम (सं. 14404573एल अब जेसी-278113वाई), 16 अप्रैल 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार कामसमगोत्र नन्दलाल जियालाल (सं. 15124878के अब जेसी-278114एफ), 16 अप्रैल 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार शिव दयाल सिंह (सं. 14407586एन अब जेसी-278115के),
14 अप्रैल 2012/17 जनवरी 2012 *

हवलदार शोभ नाथ यादव (सं. 14417326डब्ल्यू अब जेसी-278116एम), 23 अप्रैल 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार काटारु वेन्कटास्वरालू (सं. 15128220एफ अब जेसी-278117पी), 18 अप्रैल 2012/27 फरवरी 2012 *

हवलदार ब्रिजेन्द्र सिंह चौहान (सं. 15111318वाई अब जेसी-278118एक्स), 17 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार शशी वी सी (सं. 15128417एक्स अब जेसी-278119ए),
18 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार रतेन्द्र सिंह (सं. 15112565वाई अब जेसी-278120पी),
21 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार मरुधा प्रनन पी (सं. 15117247वाई अब जेसी-278121एक्स),
20 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार एस सूरियन (सं. 15116599के अब जेसी-278122ए),
23 अप्रैल 2012/23 मार्च 2012 *

हवलदार करम सिंह (सं. 14402296एम अब जेसी-278123एच),
16 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार राकेश कुमार (सं. 15119900ए अब जेसी-278124एल),
04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 15124115एन अब जेसी-278125एन),
30 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 14415095एम अब जेसी-278126डब्ल्यू),
17 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार कमलेश कुमार यादव (सं. 15120636के अब जेसी-278127वाई), 01 मई 2012/01 मई 2012 *

हवलदार पाथला कन्ना बाबू (सं. 14416938एफ अब जेसी-278128एफ), 28 मार्च 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार जी मुरुगेसन (सं. 14417436एल अब जेसी-278129के),
25 अप्रैल 2012/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 14429601एक्स अब जेसी-278130वाई),
23 मार्च 2012/30 नवम्बर 2011 *

हवलदार सुरेश कुमार ए वी (सं. 14405952एन अब जेसी-278131एफ), 28 मार्च 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार रणजीत महतो (सं. 15117473डब्ल्यू अब जेसी-278132के),
11 अप्रैल 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार अरविन्द कुमार शुक्ला (सं. 14426254वाई अब जेसी-278133एम), 16 अप्रैल 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार राज बहादुर सिंह (सं. 15122011एम अब जेसी-278134पी),
27 मार्च 2012/23 फरवरी 2012 *

हवलदार अजीत कुमार (सं. 14410137के अब जेसी-278135एक्स),
30 मार्च 2012/25 फरवरी 2012 *

हवलदार राम सुन्दर (सं. 14409694डब्ल्यू अब जेसी-278136ए),
09 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार रुम सिंह (सं. 15113173एक्स अब जेसी-278137एच),
03 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 14413893एफ अब जेसी-278138एल),
18 अप्रैल 2012/11 मार्च 2012 *

हवलदार रोहितास सिंह (सं. 15116367एल अब जेसी-278138एन),
07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार विकाश (सं. 15126154एल अब जेसी-278140एच),
05 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार धनगर एकनाथ रामभाऊ (सं. 15121468एच अब जेसी-278141एल), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार अर्जुन कुमार (सं. 14410629एच अब जेसी-278142एन),
04 मई 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार ब्रम्ह दत्त ठाकुर (सं. 14402553वाई अब जेसी-278143डब्ल्यू), 01 मई 2012

हवलदार जर्नादिन प्रसाद (सं. 14402268ए अब जेसी-277525एन),
23 नवम्बर 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार देवेन्द्र कुमार पाण्डेय (सं. 14405315एक्स अब जेसी-277526डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार चव्हाण धनाजी दादासाहेब (सं. 15124942डब्ल्यू अब जेसी-277527वाई), 08 दिसम्बर 2011/18 अगस्त 2011 *

हवलदार विरेन्द्र कुमार यादव (सं. 14402586के अब जेसी-277528एफ), 16 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार जगताप प्रकाश गुलाबराव (सं. 14410744एच अब जेसी-277529के), 22 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार धनक लक्ष्मण मालू (सं. 14404451एफ अब जेसी-277530वाई), 30 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार दराडे हौसराव गोविन्दराव (सं. 15125818एफ अब जेसी-277531एफ), 16 दिसम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार पी गोविन्द सामी (सं. 14402105एम अब जेसी-277532के),
21 दिसम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार शिन्दे तुलसीराम धोन्डीराम (सं. 14398082डब्ल्यू अब जेसी-277533एम), 28 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार गोख नाथ तिवारी (सं. 15118488एल अब जेसी-277534पी),
25 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार ईश्वर सिंह यादव (सं. 15116906डब्ल्यू अब जेसी-277535एक्स), 14 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार सीता राम यादव (सं. 15117533ए अब जेसी-277536ए),
14 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार चाको वी एस (सं. 15119000डब्ल्यू अब जेसी-277537एच),
16 नवम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार राजेश कुमार चौहान (सं. 14410363एफ अब
जेसी-277538एल), 27 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार विनायक पतगार (सं. 14409250एम अब जेसी-277539एन),
07 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14426611डब्ल्यू अब जेसी-277540एच),
30 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार राम निवास (सं. 14399801डब्ल्यू अब जेसी-277541एल),
01 अक्टूबर 2011/01 जून 2011 *

हवलदार यदुनन्दन यादव (सं. 15124973डब्ल्यू अब
जेसी-277542एन), 28 अक्टूबर 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार दुदेकुला कासीमसाहेब (सं. 15119588एच अब
जेसी-277543डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार फाजिल आसम हश्मी (सं. 15116675एल अब
जेसी-277544वाई), 02 नवम्बर 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार रामू यादव (सं. 14404070ए अब जेसी-277545एफ),
01 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार राजेश यादव (सं. 15116833पी अब जेसी-277546के),
18 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार साहिब सिंह अन्ताल (सं. 15119639एल अब
जेसी-277547एम), 16 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार जितेन्द्र कुमार राम (सं. 15120228वाई अब
जेसी-277548पी), 12 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार धर्म पाल (सं. 14413292डब्ल्यू अब जेसी-277549एक्स),
03 दिसम्बर 2011/24 अक्टूबर 2011 *

हवलदार बी वेन्कटा नारायण रेड्डी (सं. 14410169एम अब
जेसी-277550एम), 27 दिसम्बर 2011/28 अक्टूबर 2011 *

हवलदार विनोद कुमार (सं. 15112796पी अब जेसी-277551पी),
01 नवम्बर 2011

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14402656एक्स अब जेसी-277552एक्स),
01 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार मुन्सी लाल गुप्ता (सं. 14420153पी अब जेसी-277553ए),
29 दिसम्बर 2012/06 नवम्बर 2011 *

हवलदार तेली सुरेश शिव मुर्ती (सं. 15110382के अब जेसी-
277554एच), 19 दिसम्बर 2011/09 नवम्बर 2011 *

हवलदार कन्वर सेन (सं. 15111336एफ अब जेसी-277555एल),
17 दिसम्बर 2011/20 नवम्बर 2011 *

हवलदार देवेन्द्र राना (सं. 14411449एम अब जेसी-277556एन),
12 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

दीपक नारंग
अवर सचिव

वायु शाखा

सं 561, दिनांक 10 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
(प्रशासनिक शाखा)

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन एस के अग्रवाल (17033), प्रशा, 01 जुलाई 2010
(कल्पित वरीयता 01 जुलाई 2010)

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस के डे (17030)
प्रशा के नीचे एवं ग्रुप कैप्टन एम एस जी मेनन (17035) प्रशा के ऊपर
आएगा)

ग्रुप कैप्टन ए एस ग्रोवर (17504), प्रशा, 01 अप्रैल 2010

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टन पी एस यादव (17495)
प्रशा के नीचे एवं ग्रुप कैप्टन के एस सुधाकर (17510) प्रशा के ऊपर
आएगा)

ग्रुप कैप्टन सी एस प्रकाश (17769), प्रशा, 01 अप्रैल 2010

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टन ए के उपाध्याय (17757)
प्रशा के नीचे एवं ग्रुप कैप्टन ए सी मिश्रा (17202) प्रशा के ऊपर
आएगा)

ग्रुप कैप्टन जे राजेन्द्र (18150), प्रशा, 05 अप्रैल 2010

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन आर आर त्यागी (18571), उ(पा), 02 मार्च 2009

(इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन एम मोहन (18570)
उ(पा) से नीचे प्रदर्शित होगा)

ग्रुप कैप्टन पी के सिंह (18597), उ(पा), 01 मई 2009

(इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन एल कुमार (18596)
उ(पा) से नीचे और ग्रुप कैप्टन एस कौरा (18598) उ(पा) से ऊपर
प्रदर्शित होगा)

ग्रुप कैप्टन एस चन्द्रा (19164), उ(पा), 01 जनवरी 2010

सेना शाखा

(इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन जे एस धामून (19157) उ(पा) से नीचे और ग्रुप कैप्टन एच एस बसरा (19174) उ(पा) से ऊपर प्रदर्शित होगा)

ए के सिंह

सं निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं 562, दिनांक 10 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

तारा शंकर, निजी सचिव 'बी', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 08 अगस्त 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,800/- पर

शिव कुमार एस सुन्कड वरिष्ठ भंडार अधिकारी-1, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 12 जून 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- (पीबी 3) एवं ग्रेड पे रु. 6,600/- पर

अनिता सेठी, निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 26 अक्टूबर 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

वी पी सिंह

उप निदेशक (कार्मिक एए-2)

सेना सचिव शाखा

सं 563, दिनांक 11 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष आईसी-31183 मेजर जनरल जे पी एलक्स (सेवानिवृत्त) को 31 अक्टूबर 2012 (अपराह्न) से जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजीमेन्ट के पद से पदमुक्त करती है।

राष्ट्रपति, सहर्ष आईसी-27701 ले जनरल डी एस सिद्धू, एवीएसएम, बीएसएम (सेवानिवृत्त) को 31 अक्टूबर 2012 (अपराह्न) से 17 हार्स के कर्नल आफ दी रेजीमेन्ट के पद से पदमुक्त करती है।

पी के पटनायक
निदेशक
एम एस एक्स

सं 564, दिनांक 11 दिसम्बर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने के पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से त्याग पत्र देने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-68463) मेजर योगेश चन्द्र माधव सयनकर, इन्जीनियर्स, 29 अगस्त 2011 (अप)

(डब्ल्यू एस-01017) मेजर हर्षा पान्डे, ईएमई, 10 मार्च 2012 (पूर्व)

(आईसी-69576) मेजर जसपिन्दर सिंह, ईएमई, 01 अप्रैल 2012

(आईसी-63354) मेजर बड़े दिलिप महादेव, ईएमई, 11 अप्रैल 2012

(एसएस-44304) कैप्टन अपर्णा सास्त्री, ईएमई, 06 मई 2012 (पूर्व)

(आईसी-62573) मेजर मिथुन ससी, आर्टी, 08 जुलाई 2012 (पूर्व)

वन्दना दुबे

उप निदेशक

एमएस/पीआर

सेना शाखा

शुद्धि पत्र

कप्तान से मेजर

सं 565, दिनांक 11 दिसम्बर 2012--भारत के राजपत्र में दिनांक 01 दिसम्बर 2007 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-60901 कृष्णा मोहन मोहंती, एएससी

पढा जाए : आईसी-60901 कृष्णा मोहन मोहंती, एएससी

विहम स्नेहल

उप निदेशक

एमएस-8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th December 2012

(DEPARTMENT OF DEFENCE)

No. 551, dated 5th December 2012—In terms of Section 5(1) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and in supersession of all earlier communications issued on the subject matter, the Principals of Sainik Schools are hereby designated as Central Public Information Officer in respect of matters relating to that Sainik School as per the following list :—

Principal, Sainik School, Amaravathinagar, Tel. 04252-256296

Principal, Sainik School, Ambikapur, Tel. 07774-2329978

Principal, Sainik School, Balachadi, Tel. 02893-246226

Principal, Sainik School, Bhubaneswar, Tel. 0674-2581845

Principal, Sainik School, Bijapur, Tel. 08352-270638

Principal, Sainik School, Chittorgarh, Tel. 01472-248695

Principal, Sainik School, Ghorakhal, Tel. 05942-220051

Principal, Sainik School, Goalpara, Tel. 03663-287076

Principal, Sainik School, Gopalganj, Tel. 06150-231681

Principal, Sainik School, Imphal, Tel. 0385-2423434

Principal, Sainik School, Kapurthala, Tel. 01822-232532

Principal, Sainik School, Kazhakootam, Tel. 0471-2418247

Principal, Sainik School, Kodagu, Tel. 08276-278961

Principal, Sainik School, Korukonda, Tel. 0891-246168

Principal, Sainik School, Kujnpura, Tel. 0184-2385901

Principal, Sainik School, Nagrota, Tel. 0191-2673927

Principal, Sainik School, Nalanda, Tel. 06112-255449

Principal, Sainik School, Punglwa, Tel. 03839-262001

Principal, Sainik School, Purulia, Tel. 03252-223999

Principal, Sainik School, Rewa, Tel. 07662-254803

Principal, Sainik School, Rewari, Tel. 01274-260850

Principal, Sainik School, Satara, Tel. 02162-234483

Principal, Sainik School, Sujampur Tira, Tel. 01972-272024

Principal, Sainik School, Tilaiya, Tel. 06534-235048

Under Secretary in the Ministry of Defence looking after the work of Sainik Schools Society is hereby designated as Central Public Information Officer in respect of matters relating to Sainik Schools Society

Honorary Secretary, Sainik Schools Society will be Appellate Authority in respect of all the matters relating to Sainik Schools as well as Sainik Schools Society

PREM PRAKASH
Under Secy

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 552, dated 5th December 2012—President is pleased to appoint (IC-31348) Lt Gen Rajan Bakshi as Colonel/Colonel Commandant of the 17 Horse with effect from 01 Nov 2012 (F/N)

President is pleased to appoint (IC-34396F) Maj Gen RN Nair, SM as Colonel/Colonel Commandant of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment with effect from 01 Nov 2012 (F/N)

PK PATTNAYAK
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 553, dated 5th December 2012—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned WSES(O)s have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 02 Mar 2012, on relinquishing her WSES(O)s Commission wef 02 Mar 2012 :—

(IC-65644N) (WS-00657X) Sheena Goel, AEC

(IC-65645W) (WS-00660X) Raj Bala, AEC

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows:—

The date for increments of pay—02 Mar 2002

The date for promotion—02 Sep 2002

The inter-se-seniority, vis-a-vis those ofrs commissioned on the same date and granted permanent commission with same seniority for promotion, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSES(O)s/SSCOs. In case the date of seniority of the above ofr coincides with Regular officers commissioned from IMA, she will be placed junior of Regular officer commissioned from IMA

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 23 May 2012, on relinquishing their Short Service Commission wef 23 May 2012 :—

(IC-66321X) (SS-40895M) Nagarkar Suhel Krihishna. Arty

(IC-66322A) (SS-40921H) Pradeep Mishra, Inf

(IC-66323H) (SS-40944A) Tom Job Thekkedath, Inf

(IC-66324L) (SS-40948A) A Prakash, Arty

(IC-66325N) (SS-40951A) Akhilesh Kapoor, Arty

(IC-66327Y) (SS-40961K) Avnish Singh Rathore, Arty

(IC-66328F) (SS-40962M) Pushpinder Saini, Inf

(IC-66329N) (SS-40968N) Bhanu Pratap Singh Ratnawant, Arty

(IC-66330Y) (SS-41023W) Abhishek Sharma, ASC

(IC-66333K) (SS-41042F) Ashish Rana, AAD

(IC-66333M) (SS-41082H) Rakesh Ranjan, Inf

The dates to be considered in respect of abovementioned officers in regular commission will be as follows:—

Date for increment of pay—17 Sep 2004

Date for promotion—17 Apr 2006

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of their batch who were granted Permanent Commission on completion of 5 years of service)

The inter-se-seniority, vis-a-vis those granted Permanent Commission in the 8th years of service, of SSC-78 (Non Tech) Course, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

JEETENDRA OHRI
Col
Col MS-7

No. 554, dated 6th December 2012—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned officers are granted Permanent Commission the rank of Captain with effect from the date as noted against each name under AI 219/50 as amended and relinquish their Short Service Commission with effect from 22 Dec 2011 with seniority for pay and promotion indicated against each officer:—

Capt Aripripath K (VS-1133H now V-611P), 19 Mar 2007, 19 Mar 2006, 19 Mar 2006, 22 Dec 2011

Capt Sameer Faruque (VS-1134L now V-612X), 19 Mar 2007, 19 Mar 2006, 19 Mar 2006, 22 Dec 2011

Capt JK Mathuria (VS-1135N now V-613A), 19 Mar 2007, 19 Mar 2006, 19 Mar 2006, 22 Dec 2011

Capt Aneesh A (VS-1126M now V-614H), 19 Mar 2007, 19 Mar 2007, 19 Mar 2007, 22 Dec 2011

Capt Anoop Mishra (VS-1139F now V-615L), 19 Mar 2007, 19 Mar 2007, 19 Mar 2007, 22 Dec 2011

Capt Pramod U (VS-1141F now V-616N), 12 May 2008, 12 May 2008, 12 May 2008, 22 Dec 2011

Capt Ram Ratan (VS-1142K now V-617W), 12 May 2008, 12 May 2008, 12 May 2008, 22 Dec 2011

Capt Prince C Kurien (VS-1145X now V-618Y), 12 May 2008, 12 May 2008, 12 May 2008, 22 Dec 2011

DEEPAK NARANG
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 555, dated 6th December 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

L C Pandey (MR-05954P), 15 Feb 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Jan 2011

AGR Mahendraker (MR-04537W), 19 Apr 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2012

M Arora (MR-04259N), 03 Feb 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jan 2012

B Chaudhary (MR-05497M), 17 Mar 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2012

UB Mishra (MR-05357A), 27 Feb 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Feb 2012

V Raghava, VSM (MR-05858A), 16 Apr 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Mar 2012

RK Shrivastava (MR-05808P), 16 Apr 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Mar 2012

Lt Col to be Col (by selection) (Non Teck Offrs)

HHP Singh (NTR-16600M), 01 Aug 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Aug 2011.

N Mohanan (NTR-16630K), 01 May 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2012

R C Dhulia (NTR-16554H), 01 May 2012, with notional seniority without effect on pay & pension from 02 May 2012

YASH PANDEY
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 556, dated 6th December 2012—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Subs Col (By Time Scale)

(IC-32945X) Lt Col Mukitul Hye, Inf, 16 Dec 2004
(IC-43537M) Lt Col LC Katoch, Inf, 14 Dec 2011
(IC-43691L) Lt Col VB Bose, ASC, 14 Jun 2012
(IC-43697M) Lt Col DB Khattri, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43707L) Lt Col AK Majumdar, Arty, 14 Jun 2012
(IC-43708N) Lt Col PR Patnaik, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43714F) Lt Col Jose M George, Arty, 14 Jun 2012
(IC-43719A) Lt Col SS Dabas, Guards, 14 Jun 2012
(IC-43758Y) Lt Col Thomas MC, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43763K) Lt Col SP Tripathi, AAD, 14 Jun 2012
(IC-43765P) Lt Col Nagendra Singh, Guards, 14 Jun 2012
(IC-43806N) Lt Col R Rajan, Arty, 14 Jun 2012
(IC-43826F) Lt Col Anil Kumar R, Arty, 14 Jun 2012
(IC-43830K) Lt Col b Sebastian, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43839Y) Lt Col A Sharma, AAD, 14 Jun 2012
(IC-43840N) Lt Col RB Patil, AOC, 14 Jun 2012
(IC-43845M) Lt Col Sanjive Singh, AOC, 14 Jun 2012
(IC-43852H) Lt Col R Vijayakumar, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43853L) Lt Col Gurjit Singh, AOC, 14 Jun 2012
(IC-43868N) Lt Col Biswajit Das, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43876M) Lt Col Manjeet NR, AC, 14 Jun 2012
(IC-43878X) Lt Col U Sundaram, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43879A) Lt Col SR Ahlawat, Arty, 14 Jun 2012
(IC-43882A) Lt Col S Bhattacharya, Engrs, 14 Jun 2012
(IC-43891F) Lt Col Pawan Mehrotra, Inf, 14 Jun 2012

(IC-43894P) Lt Col Veeresh Bahadur, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43895X) Lt Col VK Nair, AAD, 14 Jun 2012
(IC-43906Y) Lt Col RK Sharma, Arty, 14 Jun 2012
(IC-43916H) Lt Col RK Talwar, AOC, 14 Jun 2012
(IC-43933H) Lt Col RS Kushwaha, Sigs, 14 Jun 2012
(IC-43938F) Lt Col Rakesh Wadhawan, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43939K) Lt Col SB Herlekar, Engrs, 14 Jun 2012
(IC-43943M) Lt Col Sanjay Khattri, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43950H) Lt Col SB Singh, Sigs, 14 Jun 2012
(IC-43961P) Lt Col Pravin Vikram, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43968Y) Lt Col Bhupesh Kumar, Inf, 14 Jun 2012
(IC-43986F) Lt Col SK Samanta, Sigs, 14 Jun 2012
(IC-43993X) Lt Col V Ravi Kumar, ASC, 14 Jun 2012
(IC-45587W) Lt Col KS Pathania, AC, 22 Apr 2012
(IC-47950A) Lt Col Sunil Kumar, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-47963X) Lt Col PA Dalawai, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-47976P) Lt Col Narendra Kumar, Sigs, 15 Jun 2012
(IC-47977X) Lt Col Vinod Huilgol, EME, 15 Jun 2012
(IC-47992M) Lt Col SK Gigoo, EME, 15 Jun 2012
(IC-47996H) Lt Col A Mishra, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-47998N) Lt Col AK Aggarwal, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-48013P) Lt Col R Bhangalia, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-48015A) Lt Col T Venugopal, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-48024F) Lt Col Veerendra Patny, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-48025K) Lt Col MN Rao, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-48026M) Lt Col VM Swamy, Sigs, 15 Jun 2012
(IC-48029A) Lt Col VGK Kumar, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-48039K) Lt Col RK Tiwary, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-43927P) Lt Col Ramesh Kumar, Inf, 14 Jun 2012
(IC-48020L) Lt Col C Thennarasu, Engrs, 15 Jun 2012
(IC-37972L) Lt Col A Parasar, Inf, 11 Nov 2008
(IC-42718L) Lt Col SK Pandey, Sigs, 25 Dec 2008
(IC-43063W) Lt Col AK Sharma, Engrs, 08 Mar 2012
(IC-43372Y) Lt Col MK Yadav, Arty, 14 Jun 2012
(IC-43508X) Lt Col S Shankar, Inf, 14 Dec 2011

(IC-43832P) Lt Col Sukhjit Singh, Mech Inf, 14 Jun 2012
 (IC-43907F) Lt Col KK Sharma, Sigs, 14 Jun 2012
 (IC-43921N) Lt Col TK Raj, Mech Inf, 14 Jun 2012
 (IC-43953W) Lt Col Inderjeet Singh, Mech Inf, 14 Jun 2012

Lt Col VK Harit (MR-06304N), 26 Jun 2012

RAJVIR SINGH
 Brig
 Dy DGAFMS (HR)

(ARMY BRANCH)

No. 558, dated 7th December 2012—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Subs Lt Col

Maj Manoj Kumar Das (V-560M), RVC, 10 Mar 2012

Maj Vijay Mahato (V-561P), RVC, 10 Mar 2012

Maj Vivek Saxena (V-574M), RVC, 10 Mar 2012

DEEPAK NARANG
 Under Secy

No. 559, dated 7th December 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

Kannan K (SC00153), Engrs

Karamdir Bakarwal (SC00154), Inf

D Ajit Kumar (SC00155), Arty

Jagdish G Nair (SC00158), Inf

Pratap Singh (SC00159), Int

Rajdeo Sunil (SC00160), AC

Hem Chandra Pandey (SC00161), Adarty

Nirupom Purkayastha (SC00162), EME

Surinder Singh (SC00163), AC

Mahendra Singh Dhaka (SC00164), Inf

Elayappam C (SC00165), Arty

K Taja Moni Singha (SC00166), Inf

Hari Singh Rathore (SC00167), AOC

Sukh Chain Singh (SC00168), Inf

Supinder Singh (SC00170), Inf

TK DAS
 Dy Dir
 MS-8A

ARMY BRANCH

No. 557, dated 7th December 2012—The President is pleased to make the promotion of undermentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to Colonel (Time Scale)

Lt Col A Dutta (MR-05635H), 01 Jun 2012

Lt Col Anil Malik (MR-05636L), 01 Jun 2012

Harish Kumar (SC00171), Arty	Ajay Kumar Tiwari (SC00216), Mech Inf
SS Tanwar (SC00172), Engrs	Jayan PN (SC00219), Inf
Purshottam Singh (SC00173), Inf	Rajendra BABu MK (SC00221), Arty
Arvind Kumar (SC00174), Arty	Satyavir (SC00222), Sigs
Suraj Bhan (SC00175), ASC	Ghan Shyam Singh (SC00223), Inf
Raj A (SC00177), Adarty	Sajeendran C (SC00224), Arty
Rajesh Sharma (SC00178), AOC	Jameeluddin (SC00226), AOC
Randhir Singh (SC00179), ASC	Kesha Ram (SC00227), Inf
Sonwane Ramesh Arjun (SC00181), Engrs	LB Singh (SC00228), Inf
M L Ranwa (SC00183), Sigs	Kala Singh (SC00229), Inf
SD Sharma (SC00184), Arty	DS Daya Nand (SC00230), EME
Rupender Chandel (SC00185), AC	Fateh Chand Thakur (SC00232), EME
Jitender Kumar Sharma (SC00186), Arty	Vinod Kumar KV (SC00233), Arty
SC Tripathy (SC00187), Inf	M Ranga Rao (SC00234), ASC
Dalbir Singh (SC00188), Sigs	Shurbir Singh (SC00236), Engrs
Narendran K (SC00190), Engrs	MB Singh (SC00237), Inf
Mahipal Singh (SC00191), Mech Inf	JP Hegde (SC00238), ASC
Atul Bhatnagar (SC00192), EME	Maju M (SC00239), Mech Inf
Baldev Ram (SC00193), Inf	KP Shrestha (SC00240), Inf
Surendran N (SC00194), Inf	Thomas Mathew (SC00241), Inf
Varinder Pal Singh (SC00196), Inf	OP Sharma (SC00242), Sigs
Hazur Singh (SC00197), Sigs	Padmanabhan C (SC00243), Sigs
Gulshan kumar Chona (SC00198), Inf	Lakhan Singh (SC00245), Engrs
Manoj Kumar (SC00199), Arty	HK Nair (SC00247), ASC
Uma Shankar (SC00200), Inf	Ranjit Kumar Mohanta (SC00249), Inf
Jitender Gurung (SC00201), EME	PV Yadav (SC00250), Inf
D Gengadaran (SC00202), Engrs	Jamal Ahmed (SC00251), AD Arty
Amarjeet Singh (SC00203), AC	Naresh Chandra (SC00252), Inf
Rajinder Singh (SC00204), Arty	Surendra Singh (SC00254), Arty
Hari Kumar (SC00205), Engrs	Asimuddin (SC00256), EME
Prakash VV (SC00206), Inf	AR Subrananian (SC00259), Engrs
Rama Chandran G (SC00207), ASC	Avtar Singh (SC00261), Engrs
Dinesh Kumar Singh (SC00208), Arty	V Visweswara Prasad (SC00262), AC
Remesan AK (SC00209), AOC	V Siva Kumar (SC00264), AC
Pritam Chand (SC00212), EME	Murali TT (SC00265), Inf
Thomas MG (SC00213), Adarty	Mohanadas P (SC00266), Inf
Vinod Joshi (SC00214), Inf	Hans Raj (SC00267), Arty
	Santosh Kumar (SC002268), AOC

Capt to be Maj

(IC-66537) Vijayendra Singh Yadav, Mech Inf	(IC-66586) Akash Sharma, Arty
(IC-66540) Pankaj Kumar Rawat, ASC	(IC-66587) Avdhesh Choudhary, Inf
(IC-66541) KK Sarish, AAD	(IC-66589) Ajeet Kumar Agarwal, Inf
(IC-66542) Rohit Jakhar, AC	(IC-66590) Anand Bahuguna, AC
(IC-66544) Krishna Kant Bajpai, Inf	(IC-66591) Nikhil Zope, Arty
(IC-66545) Rahul Kasana, Int	(IC-66593) S Thenkhomang Baite, Inf
(IC-66546) J Gaurav Sharma, Arty	(IC-66594) Saurabh Gupta, Inf
(IC-66548) Trivedi Nisheeth Jayantilal, Arty	(IC-66595) Arnab Banerjee, Arty
(IC-66549) Madhusudan BS, Arty	(IC-66596) Manjeet Singh, Inf
(IC-66551) Dharmaveer Singh Chauhan, Arty	(IC-66597) Sandeep Kausal, Inf
(IC-66552) Ravinder Singh Rathore, EME	(IC-66598) Devender Singh, Arty
(IC-66553) Rajpal, Arty	(IC-66600) Patel Gopinandan Dineshkumar, Int
(IC-66554) Deshpande Aniruddha Balkrishna, Arty	(IC-66602) Vivek Kumar Sharma, AC
(IC-66556) Arun Kumar MS, Arty	(IC-66603) Abhinav Manembeth, Arty
(IC-66557) Jagmohan Mehra, Inf	(IC-66605) Surendra S, Inf
(IC-66558) Saurabh Sameer, Inf	(IC-66606) Manish Dhyani, Inf
(IC-66559) Anand Singh, Inf	(IC-66607) Gaurav A Pagnis, Inf
(IC-66560) Mohit Dubey, AC	(IC-66608) Sandeep Kumar Sharma, EME
(IC-66561) Girish Thakur, Arty	(IC-66609) Shaiwal Shrivastava, Inf
(IC-66562) Kislaya Singh, Arty	(IC-66610) Krishan Bhandari, Int
(IC-66564) Vaibhav Vadera, Inf	(IC-66611) Rajat Bali, Arty
(IC-66566) Kapil Sharma, EME	(IC-66612) Akshay Lamba, AC
(IC-66567) Pawan Kumar Bohra, Inf	(IC-66613) Piyush Kumar Chhetri, Arty
(IC-66568) Mahipal Singh, AOC	(IC-66614) Nikhil Dhawan, Inf
(IC-66569) Lukshya Pratap Singh Shekhawat, Mech Inf	(IC-66615) Kuldeep Singh Chandi, Inf
(IC-66570) Udayan Pratap Singh, Inf	(IC-66616) Vikas Kadian, Int
(IC-66572) Ranjeet Singh Panwar, Inf	(IC-66617) Dhantaj Singh, AC
(IC-66573) Sudeep Singh, Mech Inf	(IC-66618) Anil Kumar Chahar, Int
(IC-66576) Hemant Mehta, Inf	(IC-66619) Himmat Singh, Inf
(IC-66577) Tarandeep Singh Gill, Inf	(IC-66620) Rajat Kumar Birman, Inf
(IC-66579) Rajinder Jit Singh, Arty	(IC-66621) Jonathan Alexander, Inf
(IC-66581) Vinod Viswanath, Inf	(IC-66622) KN Thimmayya, Arty
(IC-66582) Jagdish Singh Samant, AC	(IC-66623) Sachin Bhatnagar, Arty
(IC-66584) Nitesh Singh, Inf	(IC-66624) Amit Yadav, Arty
(IC-66585) Rowen Leslie Brass, Inf	(IC-66625) Suraj Bhan Singh, Arty
	(IC-66626) Nirvan Bajpai, AC
	(IC-66628) Sourabh Bali, Inf

(IC-66631) Raj Shobi Shammi, Inf
 (IC-66632) Vineet Shekhar Prem, Inf
 (IC-66635) Gagan Deep Singh Rathore, Inf
 (IC-66637) Niranjan Singh Dewal, Inf
 (IC-66638) Khalkar Swapnil Shivaji, Engrs
 (IC-66639) Jimmy James, Inf
 (IC-66640) Raman Adhikari, Inf
 (IC-66641) Shashi Kumar KS, AAD
 (IC-66642) Sakoon, AC
 (IC-66643) Blesson K Daniel, AAD
 (IC-66644) Ajay Kumar Bhardwaj, Arty
 (IC-66645) Adhav Sachin Jagganath, EME
 (IC-66646) Arjun Kapur, AC
 (IC-66647) Suil Kumar, Arty
 (IC-66648) Rajendra Negi, Inf
 (IC-66649) Soubam Chalamba, Inf
 (IC-66650) Pradeep Kumar Yadav, AAD
 (IC-66652) Praveen R, AAD
 (IC-66653) Vikas Guleria, Inf
 (IC-66654) Hemender Vasudeva, Inf
 (IC-66655) Roshan Krishnappa, Inf
 (IC-66655) Shashank Shekhar, Inf
 (IC-66659) Naveen Chauhan, Inf
 (IC-66660) Amit Kumar Shukla, Arty
 (IC-66662) Suresh Kumar Dev, Arty
 (IC-66663) Chandrasenan BR, Inf
 (IC-66666) Shiv Narayan Shukla, Engrs
 (IC-66667) Kulkarni Omkar Kishor, Arty
 (IC-66668) Rudrashish Pandey, Arty
 (IC-66669) Ranadive Sandeep Nandkumar, Arty
 (IC-66670) Abhilash KM, Inf
 (IC-66672) Avaneesh P Singh, Arty
 (IC-66674) Sudeep Singh, Arty
 (IC-66676) Ritchie Ashwin S, Inf
 (IC-66678) Rahul Dev, Inf
 (IC-66680) Rahul Baghel, EME
 (IC-66681) Pradeep Singh Gohil, AC

(IC-66682) Ranjeet Kumar Jha, Mech Inf
 (IC-66683) Shankar Pati Banerjee, Arty
 (IC-66684) Deepak Suyal, Inf

—17 Apr 2012

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Capt to be Maj

(SS-41513) Sudhir Gulia, Mech Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41514) Bhaskar Rai, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41520) Tripurari Singh, Engrs, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41526) Sagolshem Bikram Singh, AAD, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41530) Harneet Singh Sangha, Mech Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41537) Shamsher Singh Pannu, Engrs, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41549) Saurabh Sharma, AAD, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41555) Dushyantr, Mech Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41560) Laxman Singh, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41564) Sanjeev G, Engrs, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41569) Ankush Pratap, INT, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41579) Mukesh Sharma, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41586) Devinder Kumar Bhagat, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41597) Jitendra Naruka, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41601) Sukant Krishna Joshi, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41635) Chandra Shekhar Yadav, Arty, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012
 (SS-41638) Gaurav Pandey, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41641) Golvelkar Hemang Kamalakar, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41651) Subodh Sudan, Mech Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41678) Akshay Deep Sharma, Engrs, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41680) Puneet Anand Mishra, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41684) C Arvind Reddy, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41691) Rohit Kumar Dalal, AOC, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41692) Pratik Gupta, Engrs, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41699) Tanmoy Raha Roy, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41703) Harpreet Singh Walia, ASC, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41708) T Santosh, Engrs, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41711) Digvijay Juyal, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

(SS-41724) Rohit Atre, Inf, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2012

VIHAG SNEHAL
Dy Dir
MS-8C

No. 560, dated 10th December 2012—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Sub Capt

V-606K Capt Philip Varghese, RVC, 10 Dec 2010 but seniority in the rank wef 20 Jun 2005

V-607M Capt Rahul Dubey, RVC, 10 Dec 2010 but seniority in the rank wef 19 Mar 2006

V-608P Capt Dhananjay Singh, RVC, 10 Dec 2010 but seniority in the rank wef 19 Mar 2006

V-609X Capt DS Mandhotra, RVC, 10 Dec 2010 but seniority in the rank wef 19 Mar 2007

V-610M Capt K Senthil Kumar, RVC, 10 Dec 2010 but seniority in the rank wef 19 Mar 2007

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

To be Sub/Clk (SD)

Nb Sub/Clk (SD) Satbir Singh (JC-834418W), 12 Jul 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay & allowances)

Nb Sub/Clk (SD) Ranjit Singh (JC-834444X), 02 Jul 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allowances)

REGIMENT OF ARTILLERY

The President is pleased to make the following promotions :-

To be Nb Sub (Clk SD & SKsT)

Hav (Clk SD) Ram Swaroop (No. 15121696L now JC-278022P), 01 Mar 2012

Hav (Clk SD) Anand Ballabh Bhatta (No. 14410971H now JC-277893H), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SD) Patil Narayan Pundlik (No. 14411319K now JC-278229P), 09 Jun 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SD) Manoj Kumar (No. 14411697H now JC-277894L), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SD) Krishna Gopal Sasmal (No. 14411810M now JC-278023X), 01 Apr 2012

Hav (Clk SD) Ashok Kumar Pathak (No. 15121202W now JC-277895N), 01 Apr 2012

Hav (Clk SD) Raj Krishan (No. 15121288A now JC-278024A), 19 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SD) Surendra Singh (No. 15121693X now JC-277896W), 09 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SD) Suryanarayana Anem (No. 15121475Y now JC-278025H), 01 Apr 2012

Hav (Clk SD) Raghwendra Singh (No. 15121558K now JC-277897Y), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SD) Gautam Saha (No. 15121737K now JC-277898F), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SD) Pooran Chand (No. 15121778N now JC-277899K), 01 Apr 2012

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

Hav (Clk SD) Arvind Kumar (No. 14407272M now JC-278144Y), 01 May 2012/01 Aug 2011*

Hav (Clk SD) Bhoori Singh (No. 15121846W now JC-278026L), 01 May 2012

Hav (Clk SD) Amar Chandra Kandar (No. 15120796K now JC-278027N), 01 May 2012

Hav (Clk SD) Ram Nand (No. 15121850Y now JC-278230K), 01 May 2012

Hav (Clk SD) Chaudhari Kiran Kumar Dayaram (No. 15121905X now JC-278145F), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Sandeep Kumar Awasthi (No. 15121907H now JC-278231M), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Bhisham Singh (No. 15121908L now JC-278232P), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Raskar Rajendra Krishna Rao (No. 15121977F now JC-278233X), 10 Jun 2012/01 Jun 2012*

Hav (Clk SD) Padalkar Dasharath Birbal (No. 15121984X now JC-278146K), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Rakesh Kumar (No. 15115459L now JC-278147M), 01 Jun 2012

Hav (Clk SKT) Gurdev Singh Sandhu (No. 15119460X now JC-277900N), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SKT) Ashwani Kumar (No. 14409599K now JC-277901W), 01 Apr 2012

Hav (Clk SD) Kalebere Sachin Anant Rao (No. 15121992W now JC-278234A), 02 Jul 2012/01 Jul 2012*

Hav (Clk SD) Shinde Vikas Gulab Rao (No. 15122003P now JC-278235H), 02 Jul 2012/01 Jul 2012*

Hav (Clk SKT) Lakshmi Narayan (No. 14410949X now JC-278028W), 24 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SKT) Dinesh Tiwari (No. 15121255P now JC-278029Y), 09 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav (Clk SKT) Murari Lal (No. 14411962N now JC-278030N), 01 May 2012

Hav (Clk SD) Subimal Mohanta (No. 14411270Y now JC-278031W), 15 May 2012/01 Apr 2012*

Hav (SKT) Parimal Sarkar (No. 14405549F now JC-278236L), 01 Jun 2012/01 Apr 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

Hav (SKT) Udayvir Singh (No. 14411624W now JC-278148P), 01 Jun 2012/01 Apr 2012*

Hav (SKT) Sanjeev Kumar Dadwal (No. 15121327N now JC-278237N), 01 Jun 2012

Hav (SKT) Rabindra Kumar Sahoo (No. 14409908F now JC-278238W), 01 Jun 2012

Hav (Clk SD) Niraj Kumar Singh (No. 15122451F now JC-278239Y), 02 Jul 2012/01 Jul 2012*

Hav (SKT) Manoj Kumar (No. 15121498A now JC-278240N), 01 Jul 2012

Hav (SKT) T Durga Prasad (No. 15118945N now JC-278241W), 02 Jul 2012/01 Jul 2012*

Hav (SKT) Sangram Singh Rathor (No. 15117237P now JC-278242Y), 01 Jul 2012

Hav (Clk SD) Gobardhan Dolai (No. 15121698W now JC-278243F), 02 Jul 2012/01 Jul 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

To be Nb Sub

Hav Selvam P (No. 15121077X now JC-277902Y), 28 Feb 2012/10 Nov 2011*

Hav Rajesh Kumar (No. 15120124X now JC-277903F), 10 Feb 2012/20 Nov 2011*

Hav Yogendra Mahto (No. 15110851F now JC-277904K), 28 Feb 2012/21 Nov 2011*

Hav Dilap Kumar Sarkar (No. 14405343K now JC-277905M), 27 Feb 2012/29 Nov 2011*

Hav Suryavanshi Youraj Vitthal Rao (No. 15110681H now JC-277906P), 13 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Venkatesan K (No. 14414817F now JC-277907X), 15 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Harmohan Singh (No. 14402329M now JC-277908A), 26 Feb 2012/14 Dec 2011*

Hav Kailash Singh (No. 13978292W now JC-277909H), 16 Feb 2012/27 Dec 2011*

Hav Sham Singh (No. 14403260A now JC-277910X), 13 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Tusar Kanti Mandal (No. 15122515F now JC-277911A), 10 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Hari Pada Das (No. 14415438X now JC-277912H), 10 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Nanak Chand (No. 14429083H now JC-277913L), 07 Mar 2012/01 Jan 2012*

Hav Prithvi Singh (No. 14410518L now JC-277914H), 01 Mar 2012/01 Jan 2012*

Hav Vijayee Singh Yadav (No. 14403264W now JC-277915W), 26 Mar 2012/01 Jan 2012*

Hav Shishupal Singh (No. 14418755K now JC-277916Y), 14 Mar 2012/21 Jan 2012*

Hav Siva Kumar S (No. 14411840K now JC-277917F), 09 Mar 2012/01 Feb 2012*

Hav EP Ramesan (No. 14403584L now JC-277918K), 18 Feb 2012/01 Nov 2011*

Hav Muhini Konwar (No. 13979552H now JC-277919M), 06 Feb 2012/01 Nov 2011*

Hav Dharmender Kumar Sharma (No. 14412302H now JC-277920F), 22 Feb 2012/23 Nov 2011*

Hav Rajput Rajesh Singh (No. 14408094F now JC-277921K), 06 Mar 2012/01 Dec 2011*

Hav Magha Ram (No. 14409112L now JC-277922M), 10 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Sasi P (No. 14402135K now JC-277923P), 17 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Dinesh Kumar Mehla (No. 14408275M now JC-277924X), 17 Feb 2012/08 Dec 2011*

Hav V Narayanan (No. 14404282L now JC-277925A), 05 Mar 2012/01 Jan 2012*

Hav Joy Kumar Singha (No. 14404011N now JC-277926H), 11 Mar 2012/01 Jan 2012*

Hav Sanjai Kumar Singh (No. 15119709Y now JC-277927L), 06 Mar 2012/01 Jan 2012*

Hav Hawa Singh (No. 15131586K now JC-277928N), 29 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Manoj Kumar (No. 14410016H now JC-277929W), 17 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Satbir Singh (No. 15117213L now JC-277930L), 25 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Subhash Singh Tomar (No. 14401461A now JC-277931N), 16 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Maram Reddy Subba Reddy (No. 14404702A now JC-277932W), 06 Mar 2012/01 Feb 2012*

Hav Mastamaradi Basappa (No. 15122129P now JC-277933Y), 27 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav Bhim Singh (No. 14420325Y now JC-277760M), 02 Aug 2011/01 Aug 2011*

Hav Monikantan P (No. 14424309Y now JC-277761P), 02 Feb 2012/01 Oct 2011*

Hav Pooran Singh (No. 15116052F now JC-277762X), 25 Dec 2011/01 Oct 2011*

Hav Jaswant Singh (No. 15109579N now JC-277763A), 10 Jan 2012/01 Oct 2011*

Hav Rakesh Kumar (No. 14413320X now JC-277764H), 24 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav Sukhwant Singh (No. 15118398K now JC-277765L), 21 Jan 2012/18 Oct 2011*

Hav Jayesh Kumar SP (No. 15128099Y now JC-277766N), 08 Nov 2011/01 Nov 2011*

Hav Krishan Pal (No. 15117817K now JC-277767W), 05 Jan 2012/01 Nov 2011*

Hav Rajender Singh (No. 14397225Y now JC-277768Y), 17 Jan 2012/26 Nov 2011*

Hav Subhash G (No. 15135387N now JC-277769F), 18 Feb 2012/30 Nov 2011*

Hav Bhagyadhar Ray (No. 14405299L now JC-277770W), 05 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Awadhesh Singh (No. 15115278A now JC-277771Y), 15 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Kale Bhausaheb Dadaba (No. 15122025N now JC-277772F), 17 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Kadbhane Uddhav Vilas (No. 15121751W now JC-277773K), 17 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Ramlal Gurjar (No. 14410734Y now JC-277774M), 23 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Swarnjit Singh (No. 15117727H now JC-277775P), 03 Mar 2012/01 Jan 2012*

Hav P Muthu Krishnan (No. 15134584K now JC-277776X), 04 Jun 2011/20 May 2011*

Hav Krishna Bhushan Singh (No. 14420277K now JC-277777A), 26 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav Dhakshina Moorthy K (No. 14432535L now JC-277778H), 09 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Benoy R (No. 14426869K now JC-277779L), 13 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Manas Ranjan Nayak (No. 15147428Y now JC-277780A), 17 Jan 2012/24 Dec 2011*

Hav Ramvir Singh (No. 15126228P now JC-277781H), 05 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Gyarsi Lal (No. 15117627X now JC-277782L), 03 Jan 2012/01 Oct 2011*

Hav Zaimal Singh (No. 14408554X now JC-277783N), 23 Nov 2011/01 Oct 2011*

Hav Gopal Singh Chouhan (No. 14408013W now JC-277784W), 06 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav Amrendra Kumar (No. 15120149K now JC-277785Y), 14 Jan 2012/15 Oct 2011*

Hav Suresh Kumar (No. 15113743H now JC-277786F), 01 Jan 2012/03 Nov 2011*

Hav Narendra Singh Sisodia (No. 14424356W now JC-277787K), 11 Jan 2012/07 Nov 2011*

Hav Mangal Singh (No. 14401880X now JC-277788M), 11 Jan 2012/09 Nov 2011*

Hav Sarvesh Singh (No. 14402453N now JC-277789P), 11 Jan 2012/11 Nov 2011*

Hav Ranjeet Ram (No. 14407074F now JC-277790K), 17 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav T Karunakaran (No. 14397981L now JC-277791M),
18 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Pathade Tukaram Vittalrao (No. 15121950K now JC-277792P), 17 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Padan Kumar Dhal (No. 15122158K now JC-277793X),
16 Feb 2012/18 Jan 2012*

Hav Ramesh K (No. 15118338P now JC-277794A),
01 Feb 2012

Hav S Balaguru (No. 14415490A now JC-277795H),
18 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav Bharat Singh (No. 15120136M now JC-277796L),
16 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav Rajesh Kumar (No. 14402220M now JC-277708K),
09 Jan 2012/01 Feb 2012*

Hav Ingale Balu Laxman (No. 15122498M now JC-277709M), 02 Feb 2012/01 Oct 2011*

Hav Rajesh Kumar (No. 15115484K now JC-277710F),
11 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Kulwinder Singh (No. 14401907K now JC-277711K),
26 Jan 2012/01 Nov 2011*

Hav Ravail Singh (No. 15108590, now JC-277712M),
26 Jan 2012/01 Nov 2011*

Hav K Vetri Velan (No. 15124054F now JC-277713P),
23 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Rakesh Yadav (No. 14402303X now JC-277714X),
16 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Pan Singh (No. 14402406W now JC-277715A), 27 Jan
2012/10 Dec 2011*

Hav Moti Lal (No. 14396193P now JC-277716H), 17 Jan
2012/15 Dec 2011*

Hav Sanjay Kumar Tiwari (No. 15118496K now JC-277717L), 08 Feb 2012/16 Dec 2011*

Hav Trilok Singh (No. 15112508X now JC-277718N),
16 Jan 2012/31 Dec 2011*

Hav Y Venkata Subba Reddy (No. 15113248K now JC-277719W), 23 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Shiv Kripal Singh (No. 15117762L now JC-277720L),
26 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Bhoop Singh (No. 15113522W now JC-277721N),
21 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Santanu Maity (No. 15119257F now JC-277722W),
02 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Ved Pal Singh Bhadoria (No. 14409180Y now JC-277723Y), 01 Feb 2012

Hav Harwinder Singh (No. 14401452Y now JC-277724Y),
15 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav Tambe Ashok Nanasahib (No. 15127911F now JC-277725K), 04 Feb 2012/11 Nov 2011*

Hav Patil Hanumant Narayan (No. 15126017M now JC-277726M), 04 Feb 2012/28 Nov 2011*

Hav Jarnail Singh (No. 15115053X now JC-277727P),
01 Feb 2012/30 Nov 2011*

Hav Amiya Kumar Patgiri (No. 14399644P now JC-277728X), 22 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Ram Dhari (No. 15116252X now JC-277729A),
28 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Sri Mukesh Kumar Sharma (No. 15116157L now JC-277730P), 08 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Markanday Pandey (No. 15118491L now JC-277731X),
08 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Ramesh Kumar K (No. 15116551W now JC-277732A),
30 Jan 2012/13 Dec 2011*

Hav Madan Lal (No. 14409570F now JC-277733H), 28 Jan
2012/19 Dec 2011*

Hav Satanjiv (No. 15116198P now JC-277734L),
05 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Mahipal (No. 15116464H now JC-277735N),
01 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Thorat Ful Chand Ramnath (No. 15113104F now JC-277736W), 18 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav K Satyanarayana (No. 15113951X now JC-277737Y),
01 Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav Jagdish Prasad (No. 14395448X now JC-277738F), 02
Feb 2012/01 Jan 2012*

Hav P Rrathina Samy (No. 14400458N now JC-277739K),
22 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Madan Singh (No. 14410876W now JC-277740Y),
01 Feb 2012

Hav Barjinder Singh (No. 15113098Y now JC-277677P),
22 Jan 2012/06 Oct 2011*

Hav Rajesh Kumar Singh (No. 15118504X now JC-277678X), 15 Jan 2012/06 Oct 2011*

Hav Satish Kumar Swami (No. 15128585W now JC-277679A), 16 Jan 2012/12 Nov 2011*

Hav G Sarangpani (No. 14406866P now JC-277680P),
13 Jan 2012/26 Nov 2011*

Hav Jay Singh Kachwa (No. 14408022X now JC-277681X),
10 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Harmesh Kumar (No. 15118786F now JC-277682A),
11 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Lakhvir Singh (No. 15120027A now JC-277683H),
16 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Kultar Singh (No. 15120050N now JC-277684L),
16 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Jag Bhan Singh (No. 14403318M now JC-277685N),
16 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Mahanand Dass (No. 15121549H now JC-277686W),
10 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Mukesh Chand Yadav (No. 14398912F now JC-
277687Y), 12 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Satpal Singh (No. 14421177L now JC-277688F),
08 Jan 2012/08 Dec 2011*

Hav Kambala Sreenivasulu (No. 15116379A now JC-
277689K), 21 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Dalip Singh (No. 14412801X now JC-277690Y),
14 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Nitesh Kumar Nayak (No. 15124311N now JC-
277691F), 17 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Banwari Lal Yadav (No. 15118672 W now JC-
277692K), 12 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Sankaran Kutty M (No. 14407148L now JC-277693M),
21 Dec 2011/01 Sep 2011*

Hav Lakhbir Singh (No. 15121353P now JC-277694P),
24 Dec 2011/01 Oct 2011*

Hav Jadhav Lalasaheb Ajinath (No. 15128450P now JC-
277695X), 29 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Rajput Satender Singh Mohan Singh
(No. 15126537X now JC-277696A), 24 Dec 2011/14 Oct 2011*

Hav Sharman Lal Jat (No. 15120660, now JC-277697H),
14 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Dhamodharan K (No. 15121331W now JC-277698L),
19 Jan 2012/01 Nov 2011*

Hav Nandan Singh (No. 15112510P now JC-277699N),
14 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Rakesh Kumar Yadav (No. 15148724W now JC-
277700X), 31 Dec 2011/29 Nov 2011*

Hav Rajender Kumar Panda (No. 15114229L now JC-
277701A), 27 Dec 2011/30 Nov 2011*

Hav Harish Babu (No. 15125146, now JC-277702H),
06 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Dileep Kumar KM (No. 15114350Y now JC-277703L),
19 Feb 2012/01 Dec 2011*

Hav Sashi Kant (No. 14403905X now JC-277704N), 18 Jan
2012/01 Dec 2011*

Hav Amar Jeet (No. 14400672W now JC-277705W), 05
Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Ram Vir (No. 15111500Y now JC-277706Y),
17 Jan 2012/15 Dec 2011*

Hav Pawan Kumar Verma (No. 15113868, now JC-277707F),
27 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Desh Raj (No. 14422039W now JC-277645M), 27 Dec
2011/15 Oct 2011*

Hav Vikas Kumar (No. 15131923N now JC-277646P),
15 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Dharam Vir (No. 14420134K now JC-277647X),
10 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Harpreet Singh (No. 14420304H now JC-277648A),
12 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Rakesh Kumar (No. 14427195K now JC-277649H),
13 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Nirmal Kumar (No. 14430705L now JC-277650X),
11 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Satish Kumar (No. 14429015P now JC-277651A),
08 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Akhilesh Kumar Singh (No. 15128509K now JC-
277652H), 07 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Arun Joseph (No. 15135665W now JC-277653L),
07 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Tambile Appa Abhiman (No. 15145869W now JC-
277664N), 19 Jan 2012/24 Dec 2011*

Hav Pariya Samy A (No. 15150126X now JC-277655W),
18 Jan 2012/24 Dec 2011*

Hav Baskarn N (No. 14427021K now JC-277656Y),
03 Feb 2012/24 Dec 2011*

Hav Daljeet Singh (No. 14422784W now JC-277657F), 15
Jan 2012/24 Dec 2011*

Hav P Selvaraj (No. 15132680, now JC-277658K), 18 Jan
2012/24 Dec 2011*

Hav Deepak Kumar Giri (No. 15148106L now JC-277659M),
14 Jan 2012/24 Dec 2011*

Hav Shijoman Augustin (No. 15147610Y now JC-277660F),
10 Feb 2012/24 Dec 2011*

Hav Rajendra Singh (No. 14400876H now JC-277661K),
12 Dec 2011/01 Sep 2011*

Hav Radha Charan Singh Choudhari (No. 14410435, now
JC-277662M), 13 Nov 2011/13 Oct 2011*

Hav Sukhpal Singh (No. 14401400H now JC-277663P),
01 Nov 2011

Hav Brahm Parkash (No. 15111937M now JC-277664X),
29 Dec 2012/01 Nov 2011*

Hav Shailendra Kumar (No. 15125759, now JC-277665A),
14 Jan 2012/01 Nov 2011*

Hav Jitendra Kumar Singh (No. 14410473W now JC-
277666H), 09 Jan 2012/11 Nov 2011*

Hav Roomal Yadav (No. 15112990K now JC-277667L),
03 Feb 2012/15 Nov 2011*

Hav Mujawar Rustum Khudbuddin (No. 15115869F now
JC-277668N), 12 Jan 2012/22 Nov 2011*

Hav Arvind Singh Yadav (No. 15123688L now JC-
277669W), 31 Dec 2012/30 Nov 2011*

Hav Surinder Singh Yadav (No. 15113844W now JC-
277670L), 09 Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Kishor Singh (No. 14413290L now JC-277671N),
26 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Tuleshwar Prasad (No. 14423317L now JC-277672W),
28 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Risal Singh Shekhawat (No. 15112175W now JC-
277673Y), 29 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Shiv Dutta (No. 15121217Y now JC-277674F), 11 Jan
2012/01 Jan 2012*

Hav Ram Swaroop Rawat (No. 13978294F now JC-
277675K), 03 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav Chamel Singh (No. 14397977H now JC-277676M), 03
Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav Rajendra Singh (No. 15124888N now JC-277613K),
27 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav Aswale Rajaram Gulab (No. 15126930, now JC-
277614M), 27 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Om Prakash (No. 15118964Y now JC-277615P),
30 Dec 2011/05 Nov 2011*

Hav Patil Ganesh Raghunath (No. 15124813W now JC-
277616X), 27 Dec 2011/09 Nov 2011*

Hav Ubarhande Vishnu Santosh (No. 15123691L now JC-
277617A), 27 Dec 2011/14 Nov 2011*

Hav Shailendra Kumar Upadhyay (No. 15112379X now
JC-277618A), 25 Dec 2011/17 Nov 2011*

Hav Ashok Kumar Yadav (No. 15111749L now JC-
277619L), 21 Dec 2011/19 Nov 2011*

Hav Jagjit Singh (No. 15123669, now JC-277620A),
27 Dec 2011/19 Nov 2011*

Hav Dharam Vir Singh (No. 15114238M now JC-277621H),
29 Dec 2011/29 Nov 2011*

Hav Rajinder Kumar (No. 15120926F now JC-277622L), 05
Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Kalash Kumar (No. 15120677N now JC-277623N), 05
Jan 2012/01 Dec 2011*

Hav Prem Chand (No. 15121815W now JC-277624W),
26 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Jagat Parkash (No. 15118960H now JC-277625Y),
30 Dec 2011/06 Dec 2011*

Hav Devendra Kumar Dixit (No. 15114230A now JC-
277626E), 27 Dec 2011/18 Dec 2011*

Hav Sunil Kumar (No. 14410319X now JC-277627K),
01 Jan 2012

Hav Hans Raj Yadav (No. 14405729K now JC-277628M),
02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Shajumon TJ (No. 15110011F now JC-277629P),
06 Jun 2011/20 Apr 2011*

Hav Rabindra Muduli (No. 14410489F now JC-277630K),
07 Dec 2011/01 Aug 2011*

Hav Sonapathi Govindarao (No. 14400740Y now JC-
277631M), 08 Dec 2011/01 Sep 2011*

Hav Siddapa Hundare (No. 15123761Y now JC-277632P),
05 Dec 2011/01 Sep 2011*

Hav Vijay Kumar N (No. 15120182F now JC-277633X),
25 Nov 2011/01 Oct 2011*

Hav Anirudh Singh (No. 14402207H now JC-277634A),
13 Nov 2011/01 Nov 2011*

Hav Satbir Singh (No. 15124121F now JC-277635H),
08 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Shri Ram Rao (No. 15118568H now JC-277636L),
31 Dec 2011/03 Nov 2011*

Hav Arvind Kumar Sharma (No. 15120691A now JC-
277637N), 14 Jan 2012/15 Nov 2011*

Hav Shrawan Kumar Khecchar (No. 15110094X now JC-
277638W), 27 Dec 2011/15 Dec 2011*

Hav Kunwar Singh (No. 14405891F now JC-277639Y),
02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Ravindra Singh Yadav (No. 15120490F now JC-
277640N), 01 Jan 2012

Hav Bermeshwar Singh Yadava (No. 15112461X now JC-
277641W), 01 Jan 2012

Hav Berad Babasaheb Sukadeo (No. 14410810A now JC-277642Y), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Neeraj Kumar Yadav (No. 14409936N now JC-277643F), 01 Jan 2012

Hav Kushal Ram (No. 15111889X now JC-277644K), 01 Jan 2012

Hav Gun Sagar Singh (No. 14416566F now JC-277557W), 27 Nov 2011/17 Aug 2011*

Hav Gurtinder Singh (No. 15120031H now JC-277558Y), 21 Dec 2011/01-Sep 2011*

Hav Nader Chand Nandi (No. 15125105W now JC-277559F), 16 Nov 2011/01 Sep 2011*

Hav Rajendra Singh (No. 14415335Y now JC-277560W), 19 Dec 2011/01 Sep 2011*

Hav Keshav Singh Tomar (No. 15113372L now JC-277561Y), 05 Nov 2011/01 Oct 2011*

Hav Gohil Gemu Bhai Mungal Bhai (No. 15125850W now JC-277562F), 27 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Patil Akaram Anand (No. 8033540W now JC-277563K), 18 Dec 2011/02 Oct 2011*

Hav Dhiren Bora (No. 15112759F now JC-277564M), 16 Nov 2011/09 Oct 2011*

Hav Anil Kumar MM (No. 15128433P now JC-277565P), 19 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav K Raja (No. 15128627X now JC-277566X), 29 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Rajesh PV (No. 15129066A now JC-277567A), 29 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Satish Kumar (No. 14406229Y now JC-277568H), 14 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Madan Lal Sharma (No. 15112446H now JC-277569L), 23 Nov 2011/26 Oct 2011*

Hav Samesula Venkateswarlu (No. 15124390N now JC-277570A), 09 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Rajeshwar Prasad Singh (No. 15114927N now JC-277571H), 19 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Vinod Kumar Sharma (No. 15113942W now JC-277572L), 03 Nov 2011/01 Nov 2011*

Hav Shiv Kumar (No. 14411401Y now JC-277573N), 20 Aug 2011/01 Apr 2011*

Hav Madhi Sankara Rao (No. 14400739K now JC-277574W), 21 Sep 2011/29 Jul 2011*

Hav Shaik J Babavali (No. 14406340H now JC-277575Y), 15 Nov 2011/24 Sep 2011*

Hav Lucky Rakesh Sharma (No. 15120190A now JC-277576F), 01 Oct 2011

Hav Lakhwinder Singh (No. 15124709H now JC-277577K), 07 Dec 2011/03 Oct 2011*

Hav Bipan Chand (No. 15111904F now JC-277578M), 04 Jan 2012/15 Oct 2011*

Hav Ashok Singh (No. 15111920Y now JC-277579P), 24 Dec 2011/17 Oct 2011*

Hav Nimbalkar Brahmdev Shankar (No. 14411843X now JC-277580K), 19 Dec 2011/22 Oct 2011*

Hav Ravi Chandran C (No. 15118305K now JC-277581M), 22 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Moni Kumar KS (No. 14399661P now JC-277582P), 19 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Sheelendra Singh (No. 15125126M now JC-277583X), 24 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Rameshwar Lal Ananda (No. 15125682H now JC-277584A), 24 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Chavan Prashant Rajpal (No. 15120577H now JC-277585H), 21 Dec 2011/16 Nov 2011*

Hav Jong Bhadur Singh (No. 15116915X now JC-277586L), 22 Dec 2011/23 Nov 2011*

Hav Kokate Rajkumar Amrutrao (No. 14410237P now JC-277587N), 17 Dec 2011/01 Dec 2011*

Hav Shiv Kumar (No. 15124435H now JC-277588W), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Hav Ram Singh (No. 15120103F now JC-278112W), 14 Mar 2012/06 Oct 2011*

Hav Mange Ram (No. 14404573L now JC-278113Y), 16 Apr 2012/01 Nov 2011*

Hav Kasmgotra Nandalal Jiyalal (No. 15124878K now JC-278114F), 16 Apr 2012/01 Jan 2012*

Hav Shiv Dayal Singh (No. 14407586N now JC-278115K), 14 Apr 2012/17 Jan 2012*

Hav Shobh Nath Yadav (No. 14417326W now JC-278116M), 23 Apr 2012/01 Feb 2012*

Hav Kataru Venkatswarlu (No. 15128220F now JC-278117P), 18 Apr 2012/27 Feb 2012*

Hav Brijendra Singh Chauhan (No. 15111318Y now JC-278118X), 17 Apr 2012/01 Mar 2012*

Hav Sasi VC (No. 15128417X now JC-278119A), 18 Apr 2012/01 Mar 2012*

Hav Ratendra Singh (No. 15112565Y now JC-278120P), 21 Apr 2012/01 Mar 2012*

Hav Marudha Pranani P (No. 15117247Y now JC-278121X),
20 Apr 2012/01 Mar 2012*

Hav S Soorian (No. 15116599K now JC-278122A),
23 Apr 2012/23 Mar 2012*

Hav Karam Singh (No. 14402296M now JC-278123H),
16 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav Rakesh Kumar (No. 15119900A now JC-278124L),
04 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav Jaswinder Singh (No. 15124115N now JC-278125N),
30 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav Mahendra Singh (No. 14415095M now JC-278126W),
17 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav Kamlesh Kumar Yadav (No. 15120636K now
JC-278127Y), 01 May 2012/01 Apr 2012*

Hav Pathala Kanna Babu (No. 14416938F now JC-278128F),
28 Mar 2012/01 Nov 2011*

Hav G Murugesan (No. 14417436L now JC-278129K),
25 Apr 2012/01 Nov 2011*

Hav Sukhvinder Singh (No. 14429601X now JC-278130Y),
23 Mar 2012/30 Nov 2011*

Hav Suresh Kumar AV (No. 14405952N now JC-278131F),
28 Mar 2012/01 Dec 2011*

Hav Ranjit Mahato (No. 15117473W now JC-278132K),
11 Apr 2012/01 Feb 2012*

Hav Arvind Kumar Shukla (No. 14426254Y now
JC-278133M), 16 Apr 2012/01 Feb 2012*

Hav Raj Bahadur Singh (No. 15122011M now JC-278134P),
27 Mar 2012/25 Feb 2012*

Hav Ajit Kumar (No. 14410137K now JC-278135X),
30 Mar 2012/25 Mar 2012*

Hav Ram Sundar (No. 14409694W now JC-278136A),
09 Apr 2012/01 Mar 2012*

Hav Room Singh (No. 15113173X now JC-278137H),
03 Apr 2012/01 Mar 2012*

Hav Narendra Singh (No. 14413893F now JC-278138L),
18 Apr 2012/11 Mar 2012*

Hav Rohitash Singh (No. 15116367L now JC-278139N),
07 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav Vikash (No. 15126154L now JC-278140H), 05 Apr
2012/01 Apr 2012*

Hav Dhanger Eknath Ram Bhau (No. 15121468H now
JC-278141L), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav Arjun Kumar (No. 14410629H now JC-278142N),
04 May 2012/01 Apr 2012*

Hav Braham Dutt Thakur (No. 14402553Y now
JC-278143W), 01 May 2012

Hav Janardhan Prasad (No. 14402268A now JC-277525N),
23 Nov 2011/01 Aug 2011*

Hav Devendra Kumar Pandey (No. 14405315X now
JC-277526W), 05 Sep 2011/01 Aug 2011*

Hav Chavan Dhanaji Dabasaheb (No. 15124942W now
JC-277527Y), 08 Oct 2011/18 Aug 2011*

Hav Verendra Kumar Yadav (No. 14402586K now
JC-277528F), 16 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Jagtap Prakash Gulabrao (No. 14410744H now
JC-277529K), 22 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Dhanak Laxman Malu (No. 14404451F now
JC-277530Y), 30 Nov 2011/01 Oct 2011*

Hav Darade Hausrao Govind Rao (No. 15125818F now
JC-277531F), 16 Dec 2011/01 Oct 2011*

Hav P Govinda Samy (No. 14402105M now JC-277532K),
21 Dec 2011/01 Oct 2011*

Hav Shinde Tulsiram Dhondiram (No. 14398082W now
JC-277533M), 28 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav Gorakh Nath Tiwari (No. 15118488L now JC-277534P),
23 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Ishwar Singh Yadava (No. 15116906W now
JC-277535X), 14 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Sita Ram Yadav (No. 15117533A now JC-277536A),
14 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Chacko VS (No. 15119000W now JC-277537H),
16 Nov 2011/15 Oct 2011*

Hav Rajesh Kumar Chauhan (No. 14410363F now
JC-277538L), 27 Nov 2011/01 Nov 2011*

Hav Vinayak Patgar (No. 14409250M now JC-277539N),
07 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Rajesh Kumar (No. 14426611W now JC-277540H),
30 Nov 2011/01 Nov 2011*

Hav Ram Niwas (No. 14399801W now JC-277541L),
01 Oct 2011/01 Jun 2011*

Hav Yadunandan Yadav (No. 15124973W now
JC-277542N), 28 Oct 2011/01 Jul 2011*

Hav Dudekula Kasimsaheb (No. 15119588H now
JC-277543W), 08 Dec 2011/01 Aug 2011*

Hav Fazil Ahsam Hasmi (No. 15116675L now JC-277544Y),
02 Nov 2011/01 Aug 2011*

Hav Ramu Yadav (No. 14404070A now JC-277545F),
01 Nov 2011/01 Oct 2011*

Hav Rajesh Yadav (No. 15116833P now JC-277546K),
18 Nov 2011/01 Oct 2011*

Hav Sahib Singh Anttal (No. 15119639L now JC-277547M),
16 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav Jitendra Kumar Ram (No. 15120228Y now JC-277548P),
12 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav Dharam Pal (No. 14413292W now JC-277549X),
03 Dec 2011/24 Oct 2011*

Hav B Venkata Narayana Reddy (No. 14410169M now
JC-277550M), 27 Dec 2011/28 Oct 2011*

Hav Vinod Kumar (No. 15112796P now JC-277551P),
01 Nov 2011

Hav Kuldeep Singh (No. 14402656X now JC-277552X),
01 Dec 2011/01 Nov 2011*

Hav Munsil Lal Gupta (No. 14420153P now JC-277553A),
29 Dec 2012/06 Nov 2011*

Hav Teli Suresh Shiv Murti (No. 15110382K now
JC-277554H), 19 Dec 2011/09 Nov 2011*

Hav Kanwar Sen (No. 15111336F now JC-277555L),
17 Dec 2011/20 Nov 2011*

Hav Devender Rana (No. 14411449M now JC-277556N),
12 Dec 2011/01 Dec 2011*

*(Gtd seniority wef)

DEEPAK NARANG
Under Secy

AIR BRANCH

No. 561, dated 10th December 2012—The President is
pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

To be Subs GP Capt (ADM Branch)

GP Capt SK Aggarwal (17033), ADM, 01 Jul 2010 (NS 14
Jan 2008) his name will appear below GP Capt SK Dey
(17030), ADM and above GP Capt MSG Menon (17035),
ADM in the Combined Gradation List

GP Capt AS Grover (17504), ADM, 01 Apr 2010 his name
will appear below GP Capt PS Yadav (17495), ADM and
above GP Capt KS Sudhakar (17510), ADM in the Combined
Gradation List

GP Capt CS Prakash (17769), ADM, 01 Apr 2010 his name
will appear below GP Capt AK Upadhyaya (17757), ADM
and above GP Capt AC Mishra (17202), ADM in the
Combined Gradation List

GP Capt J Rajendra (18150), ADM, 05 Apr 2010

GP Capt RR Tyagi (18571), F(P), 02 Mar 2009 his name
will appear below GP Capt M. Mohan (18570), F(P) in the
Combined Gradation List

GP Capt PK Singh (18597), F(P), 01 May 2009 his name
will appear below GP Capt L Kumar (18596), F(P) and above
GP S Kaura (18598), F(P) in the Combined Gradation List

GP Capt S Chandra (19164), F(P), 01 Jan 2010 his name
will appear below GP Capt JS Dhamoon (19157), F(P) and
above GP Capt HS Basra (19174), F(P) in the Combined
Gradation List

AK SINGH
Jt Dir Personnel (Officer)-2B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 562, dated 10th December 2012—The President is
pleased to make the following promotion :—

Thara Shankar, Private Secretary 'B', Gp 'B' (Gazetted) in
DRDO with effect from 08 Aug 2012 (FN) Pay Band of
Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,800/-.

Shivakumar S Sunkad, Sr Stores Officer Grade-I, Gp 'A'
(Gazetted) in DRDO with effect from 12 Jun 2012 (FN) Pay Band
of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay Rs. 6,600/-.

Anita Sethi, PS 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect
from 26 Oct 2012 (FN) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/-
(PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

VP SINGH
Dy Dir (Pers)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 563, dated 11th December 2012—The President is
pleased to permit (IC-31183) Maj Gen JP Alex (Retd) to
relinquish the appointment of Colonel/Colonel Commandant
of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment with
effect from 31 Oct 2012 (AN).

President is pleased to permit (IC-27701) Lt Gen DS Sidhu,
AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel/
Colonel Commandant of the 17 Horse with effect from 31
Oct 2012 (AN).

PK PATTNAYAK
Dir/MS (X)

ARMY BRANCH

(IC-62573) Maj Mithun Sasi, Arty, 08 Jul 2012 (FN)

No. 564, dated 11th December 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officers to resign their commission from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

VANDANA DUBE

Dy Dir

MS/PR

REGULAR ARMY

ARMY BRANCH

No. 565, dated 11th December 2012—

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

(IC-68463) Maj Yogesh Chandra Madhav Sayanakar, Engrs, 29 Aug 2011 (AN)

Capt to be Maj

(WS-01017) Maj Harsha Pandey, EME, 10 Mar 2012 (FN)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 01 Dec 2007 under the heading "Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made :—

(IC-69576) Maj Jaspinder Singh, EME, 01 Apr 2012

FOR : (IC-60901) Krishna Mohan Mohaty, ASC

(IC-63354) Maj Badhe Dilip Mahadeo, EME, 11 Apr 2012

READ : (IC-60901) Krishna Mohan Mohanty, ASC

(SS-44304) Capt Aparna Sastry, EME, 06 May 2012 (FN)

VIHAG SNEHAL

Dy Dir

MS-8C

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012